



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 12-जून 18, 2004 (ज्येष्ठ 22, 1926)

No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 12-JUNE 18, 2004 (JYAISTHA 22, 1926)

इस भाग में सिन्न एउ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई
सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the
Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई, 2004

सं० आरएस०/6(V)/2004/54 कामिक—राज्य सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य सचेतक श्री प्रणब मुखर्जी का लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचन होने के परिणामस्वरूप श्री एम०के० मुखर्जी, जिन्हें राज्य सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक के वैयक्तिक स्टाफ में सह-पदावसान के आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, की सेवाएं 13 मई, 2004 से 15 दिन की समापन अवधि प्रदान करने के उपरांत 28 मई, 2004 के पूर्वाह्न से समाप्त कर दी गई हैं।

प्र० रं० गुहाराय, उप सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 मई 2004

एफ० सं० 15/10/जी एन-5174/ए एन-I/2003 अध्यक्ष
महोदय लोक सभा सचिवालय में क्रमशः 8-10 फरवरी, 2002

1-102 GI/04

तथा 27-28 दिसम्बर 2002 को हुई लिखित परीक्षा और वैयक्तिक साक्षात्कार के आधार पर कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के पद के लिए चयन होने के परिणामस्वरूप कु० जुबी मेहरा को 8000-13500 रु० के वेतनमान में कार्यकारी/विधायी प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के पद पर स्थानापन्न आधार पर 17 मई, 2004 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. वह 17 मई 2004 से 16 मई 2005 तक एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के ग्रेड में परिवीक्षा पर रहेंगे।

3. उनकी कार्यकारी/विधायी/प्रोटोकॉल/समिति अधिकारी के ग्रेड में परस्पर बरिष्ठता 20 दिसम्बर 2003 के आर एण्ड सी एस आदेश संख्या पीडीए-1076/2003 के अनुसार विनियमित की जाएगी।

आनन्द बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

(581)

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 21 मई 2004

सं० ए-19013/2/2004-प्रशासन—राष्ट्रपति, श्री जे०पी० सिन्हा को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में निदेशक के पद पर वेतनमान 16,400-20,000/-₹० में दिनांक 20 मई 2004 के पूर्वाह्न से प्रतिनियुक्ति आधार पर 2 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हों, नियुक्त करते हैं।

कृष्ण दत्त, अव सचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बेगलूर-560094, दिनांक 19 मई 2004

सं० 12/6/1/2004-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग में डॉ० ई० वी० रमण रेड्डी भा० प्र० से० (कर्नाटक :88) को निदेशक के रूप में दिनांक 19 मई 2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

के० एस० रामचन्द्र, उप सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 29 अप्रैल, 2004

सं० ए-12022/2/2002-प्रशा-V—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का० जा० सं० 21/9/2004-सीएस-I दिनांक 24 मार्च, 2004 के अनुसरण में और योजना आयोग की दिनांक 7-1-2004 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में योजना आयोग के निम्नलिखित नियमित सहायक जो पहले से ही तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं, वे दिनांक 24 मार्च, 2004 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक अनुभाग अधिकारी के पद पर बने रहेंगे।

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	सहायक ग्रेड में चयन सूची वर्ष
1.	श्री ओ० पी० चाबला	1985
2.	श्री नरेन्द्र कुमार	1989
3.	श्री एस० के० नागी	1989
4.	श्रीमती एन० के० छिब्बर	1989

2. यह तदर्थ नियुक्ति पूर्णतः स्टॉप-गैप उपाय के तौर पर की गई है और इससे ग्रेड में अनिश्चित रूप से कार्य करने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल करने हेतु अथवा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता हेतु दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। यह तदर्थ नियुक्ति, वरिष्ठता कोटा और/अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने तक, जारी रहेगी। यदि वे अधिकारी नियमित नियुक्ति हेतु इन दोनों श्रेणियों में अर्हक

नहीं होते हैं तो ऐसे नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने पर उन्हें सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

रवजीत सिंह, अव सचिव

सं० ए-12022/2/2002-प्रशा०—V : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का० जा० सं० 21/9/2004-सीएस-I, दिनांक 24 मार्च, 2004 के अनुसरण में राष्ट्रपति, चयन सूची वर्ष 1989 के सीएसएस के नियमित सहायक श्री मनोहर खोसला को योजना आयोग में तदर्थ आधार पर दिनांक 24 मार्च, 2004 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति पूर्णतः स्टॉप-गैप उपाय के तौर पर की गई है और इससे ग्रेड में अनिश्चित रूप से कार्य करने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल करने हेतु अथवा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता हेतु दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। यह तदर्थ नियुक्ति, वरिष्ठता कोटा और/अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में नियमित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने तक, जारी रहेगी। यदि श्री मनोहर खोसला नियमित नियुक्ति हेतु इन दोनों श्रेणियों में अर्हक नहीं होते हैं तो ऐसे नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने पर उन्हें सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

रवजीत सिंह, अव सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 2004

सं० ए-44011/1/2003-प्रशासन-1—सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के निर्देशानुसार एस० डी० आर० डी० (एन०एस०एस०ओ०), कोटा में निदेशक के पद पर उनकी नियुक्ति हेतु, डा० (श्रीमती) सविता शर्मा, आई० एस० एस०, निदेशक, योजना आयोग को दिनांक 05-05-2004 (अपराह्न) से योजना आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है।

के० के० छाबड़ा, अव सचिव

दिनांक 11 मई, 2004

सं० एफ-6(1750)/98-प्रशासन-1—राष्ट्रपति डा० (श्रीमति) सुजाता विश्वनाथन, आई०ई०एस०, निदेशक, योजना आयोग (जो दिनांक 30-10-2000 से एशियाई विकास बैंक में विदेश समनुदेशन पर है) द्वारा प्रस्तुत दिनांक 30-10-2003 (पूर्वाह्न) से सरकारी सेवा से त्यागपत्र का अनुमोदन करते हैं। इसके परिणामस्वरूप, उन्हें उसी तिथि से सरकारी सेवा से सेवामुक्त किया जाता है।

के० के० छाबड़ा, अव सचिव

सं० ए-43014/03/2000-प्रशा० II—आर्थिक मामले विभाग के दिनांक 7-5-2004 के आदेश संख्या-11016/2/99-आई० ई० एस० के तहत आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय

में स्थानांतरण हो जाने और अनुसंधान अधिकारी के रूप में तैनाती होने के परिणामस्वरूप योजना आयोग में श्री एम० सी० आर्य, आई० ई० एस० के ग्रेड-IV अनुसंधान अधिकारी को आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय में रिपोर्ट करने हेतु दिनांक 11-5-2004 (अपराह्न) से कार्यभार मुक्त किया जाता है।

के०के० छावड़ा, अवर सचिव

दिनांक 13 मई, 2004

सं० ए-43014/3/2000-प्रशा०-II—योजना आयोग की दिनांक 11 मई, 2004 की समसंख्यक अधिसूचना में आर्थिक संशोधन करते हुए, योजना आयोग में श्री एम० सी० आर्य, आई० ई० एस० के ग्रेड-IV, अनुसंधान अधिकारी को आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय में रिपोर्ट करने हेतु दिनांक 13-5-2004 (अपराह्न) से कार्यभार मुक्त किया जाता है।

के०के० छावड़ा, अवर सचिव

सं० ए-43014/3/2000-प्रशा०-II—आर्थिक मामले विभाग के दिनांक 7-5-2004 के आदेश संख्या-11016/2/99-आई० ई० एस० के तहत आई० ई० एस० के ग्रेड-IV में पदोन्नति होने और योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारी के रूप में तैनाती होने के परिणामस्वरूप डॉ० शरद पन्त ने नियमित पदोन्नति आधार पर 8000-275-13500/- रु० के वेतनमान में दिनांक 12-5-2004 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

के०के० छावड़ा, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 मई 2004

सं० ए-12025/1/2001-प्रशा०-IV(वि०का०)—वैयक्तिक कारणों के आधार पर अपने मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन के श्रीमती पी० एन० सांताकुमारी के अनुरोध के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति उन्हें विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण, नई दिल्ली में सदस्य के पदभार से तत्काल प्रभाव से मुक्त करते हैं और उनकी सेवाएं उनके मूल संवर्ग अर्थात् केरल उच्च न्यायालय को सौंपते हैं।

यशवंत सिंह, अवर सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 21 मई 2004

सं० के० 13030/1/2004 यू० एस० II—भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायबिद् श्री अय्यमपालयम सोमसुन्दरम वेंकटाचलमूर्ती को उनके

पदभार ग्रहण करने की तारीख से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संवर्ष नियुक्त करते हैं।

डॉ० पी० के० सेठ, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली दिनांक 25 मई 2004

सं० आई-14011/7/2003-आई० पी० एस०-1—भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए लोक सेवा आयोग ने दिनांक 12-5-2004 को हरियाणा पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में पदोन्नति किए जाने के लिए वर्ष 2004 के दौरान हुई तीन रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से चयन समिति द्वारा अपनी दिनांक 25-12-2003 को आहूत एवं 10-3-2003 को पुनः आहूत तैठक में तैयार की गई हरियाणा की राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के नामों वाली वर्ष 2003 की चयन सूची अनुमोदित कर दी है।

क्र०सं०	नाम	जन्म तिथि
1.	डॉ० (श्रीमती) राजश्री सिंह	05-07-1966
2.	श्री राजबीर सिंह	05-12-1950
3.	श्री जगदीश चन्दर (एस सी) *	15-03-1957

* क्रम संख्या 3 पर दिये गये नाम को उनके विरुद्ध संवित अनुशासनिक मामले के निपटान किए जाने के अध्यधीन सूची में अन्तिम रूप से शामिल किया गया है।

एस० पी० वर्मा, अवर सचिव

सं० आई-14011/7/2003-आई० पी० एस०-1—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा राज्य पुलिस के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत हरियाणा संवर्ग प्रदान करते हैं। यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

वर्ष 2003 की चयन सूची

क्रम सं०	नाम	जन्म तिथि
1.	डॉ० (श्रीमती) राजश्री सिंह	5-07-1966
2.	श्री राजबीर सिंह	5-12-1950

एस० पी० वर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 2004

सं० 20/जी/2525-प्रशा०(क)—राष्ट्रपति, श्री बी० बी० गोपीनाथ (आई०आर०एस०-87) को दिनांक 17 मई, 2004 के पूर्वार्द्ध से पांच वर्षों के लिए अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, गृह मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस० के० भटनागर, अवसर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 2004

सं० 14015/06/2003-अ०भा०से० (I)-क—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में विहित उपबंधों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के संयुक्त असम-मेघालय संवर्ग के असम खण्ड में वर्ष, 2002 के संबंध में 8 (आठ) रिक्तियाँ भरने हेतु चयन समिति द्वारा 29 दिसम्बर, 2003 को आयोजित अपनी बैठक में तैयार की गई असम राज्य के राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के नामों वाली वर्ष, 2002 की प्रवर सूची अनुमोदित कर दी है :—

प्रवर सूची-2002

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
\$ 1.	प्रदीप कुमार दास	16-03-1953
\$ 2.	मो० नूरुल हक	28-02-1946
3.	ए० बी० मो० यूनस	01-02-1953
4.	बलेन्द्र वासुमतारी (एस० टी० पी०)	01-04-1948
5.	सुभाष चन्द्र लोंगमाइलेई (एस० टी० एच०)	23-02-1953
* 6.	गोकुल चन्द्र शर्मा	01-03-1948
7.	रफीक जमान	01-02-1951
8.	सैयद ईफ्तिकार हुसैन	21-09-1954

\$ क्रम संख्या 01 तथा 02 पर दिए गए नामों को, राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र दिए जाने के अधीन प्रवर सूची में अंतिम रूप से शामिल किया गया है। क्रम संख्या 02 पर दिए गए अधिकारी को 29 फरवरी, 2004 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण नियुक्त नहीं किया जा सकता।

* क्रम संख्या 06 पर दिए गए नाम को राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र दिए जाने और उसके विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही में उसके निर्दोष पाए जाने के अधीन, प्रवर सूची में अंतिम रूप से शामिल किया गया है।

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

संख्या-14015/06/2003-अ०भा०से० (I)-ख—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3 के साथ पठित, भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, असम राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को वर्ष, 2002 की रिक्तियों पर, भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर, अगले आदेशों तक तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के अधीन संयुक्त असम-मेघालय संवर्ग के असम खण्ड में आवंटित करते हैं :—

क्रम संख्या अधिकारी का नाम (सर्वश्री)

1. ए० बी० मो० यूनस
2. बलेन्द्र वासुमतारी (एस० टी० पी०)
3. सुभाष चन्द्र लोंगमाइलेई (एस० टी० एच०)
4. रफीक जमान
5. सैयद ईफ्तिकार हुसैन

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

दिनांक 26 मई 2004

सं० 14015/07/2003-अ०भा०से० (I)-ख—भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के उप नियम 3 के साथ पठित, भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम, 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, महाराष्ट्र राज्य सिविल सेवा के सदस्य श्री एम० एच० सावंत को भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर, अगले आदेशों तक तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के महाराष्ट्र संवर्ग में आवंटित करते हैं।

उपयुक्त नियुक्ति न्यायालय में चल रहे निम्नलिखित मुकदमों में आने वाले निर्णयों के अधीन है।

- (i) महाराष्ट्र सरकार द्वारा बी० डी० बनाम और अन्य के विरुद्ध दायर 2003 की रिट याचिका संख्या 6839।
- (ii) श्री एम० के० थोम्बरे और अन्य द्वारा बी० डी० बनाम और अन्य के विरुद्ध दायर 2003 की रिट याचिका संख्या 6407।

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई, 2004

सं० ए-12026/1/2004-प्रशासन-1—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक श्री राकेश बी० दुबे को इस विभाग में 7500-250-12000 रुपए के वेतनमान में दिनांक 19 मई, 2004 के पूर्वाह्न से छह माह की अवधि के लिए अथवा नियमित सहायक निदेशक (राजभाषा) के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (राजभाषा) के रूप में नियुक्त करते हैं।

बी के घेलकुट्टी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई, 2004

सं०-11019/5/2003-अ०भा०से० (II)- राष्ट्रपति, अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियम, 1955 के नियम 7 (2) के अनुसार यह निदेश देते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के ए० जी० एम० यू० टी० संवर्ग (1971) के सदस्य डा० जी० एस० जया का भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्याग पत्र, तत्काल प्रभाव से दिया हुआ समझा जाए।

अकील अहमद, उप सचिव

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई 2004

सं० ए० 19012/10/2001-प्रशा II—राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा की एक वरिष्ठ समय वेतनमान स्तर की अधिकारी सुश्री अनुराधा गुरु को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में 06 अप्रैल, 2004 के अपराह्न से अगले आदेश तक उप निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

ईश्वर चन्द काम्बोज, अवर सचिव

दिनांक 19 मई, 2004

सं० ए० 12011/21/2002-प्रशा० II—वित्त सचिव के अनुमोदन से, श्री अनवर इब्राहिम काजी को दिनांक 01 सितम्बर 2003 के पूर्वाह्न से 29-02-2004 तक 6500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में कोटमनिस आधार पर वित्त राज्यमंत्री (व्यय, बैंकिंग व बीमा) (श्री आनन्दराव बी० अडसूल) का सहायक निजी सचिव नियुक्त किया जाता है।

ईश्वर चन्द काम्बोज, अवर सचिव

दिनांक 20 मई 2004

सं० ए० 19012/2/2004-प्रशा० II—राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा की वरिष्ठ समय वेतनमान स्तर के अधिकारी

श्री अनिल कुमार शर्मा को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में 12 अप्रैल, 2004 के अपराह्न से अगले आदेश तक सहायक सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

ईश्वर चन्द काम्बोज, अवर सचिव

सं० ए० 19012/3/2004-प्रशा० II—राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा की वरिष्ठ समय वेतनमान स्तर की अधिकारी सुश्री सुनीता यादव को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में 12 अप्रैल 2004 के अपराह्न से अगले आदेश तक सहायक सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

ईश्वर चन्द काम्बोज, अवर सचिव

दिनांक 25 मई 2004

सं० ए० 12011/1/2004-प्रशा० 1—सचिव (आर्थिक कार्य) के अनुमोदन से वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग में कनिष्ठ लेखा अधिकारी श्री जे० के० आर्या को इसी विभाग में पदोन्नति आधार पर 7450-225-11500/- रुप० के वेतनमान में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है।

ईश्वर चन्द काम्बोज, अवर सचिव

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 मई 2004

सं० ए-32013/1/2002-स्था केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I (अवर सचिव) की नियुक्ति हेतु वर्ष 1996 की चयन सूची में श्री एम० के० मल्होत्रा का नाम शामिल किए जाने के फलस्वरूप राष्ट्रपति उन्हें दिनांक 1-7-1996 से नियमित आधार पर अवर सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री एम० के० मल्होत्रा का वेतन सैद्धान्तिक आधार पर दिनांक 1-7-1996 से निर्धारित किया जाएगा, परन्तु वेतन एवं भत्तों की पिछड़ी, बकाया राशि उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा केन्द्रीय रूप से दिए गये आदेश के अनुसार तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर वास्तविक नियुक्ति की तारीख से दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, श्री एम० के० मल्होत्रा मौलिक नियम 22 के उपबंधों के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार अपने वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देने के हकदार भी होंगे।

3. चयन सूची 1996 से अवर सूची के पद पर श्री एम० के० मल्होत्रा की नियुक्ति श्री आर० के० ओझा और सुश्री प्रीति श्रीवास्तव बनाम भारत संघ एवं अन्यो द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं में अंतिम निर्णय दिए जाने के अभ्यधीन होगी।

डी० चौधरी, अवर सचिव

(मुद्रा एवं सिक्का प्रभाग)

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 2004

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई, 2004

सं० एफ० 4/3/03-करेंसी-1(एस० पी० एम)—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर प्रतिभूति कागज कारखाना होशंगाबाद में सहायक प्रबंधक (विद्युत) श्री बी० आर बरमैया को दि० 31-01-2004(अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त किया जाता है। उसी तारीख से उनका नाम प्रतिभूति कागज कारखाना की पंजिका से हटा दिया गया है।

सं० 08/2004(ए-19011/2/2004-स्था०)—राष्ट्रपति, श्री जे० के० शर्मा, आई० ए० एस० (एमपी : 75) को वस्त्र मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में 18,400-500-22,400/-र० के वेतनमान में 18 मई, 2004 की पूर्वाह्न से पाँच वर्ष के सामान्य कार्यकाल के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इसमें जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

पी० के० शर्मा, अवर सचिव

आर० सुब्रमण्यम, निदेशक

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 2004

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 2004

सं० 9/2004 (2/2/2002-मा०सं० वि०-1/1579)—विदेश व्यापार महानिदेशालय में विदेश व्यापार विकास अधिकारियों के ग्रेड में अधिकारियों की पदोन्नति के लिए 16-12-2002 को हुई विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही की समीक्षा करने के लिए 2-12-2003 को हुई समीक्षा विभागीय पदोन्नति समिति सिफारिश पर महानिदेशक, विदेश व्यापार पूर्ववापी प्रभाव से 16-6-2003 से, जिस तारीख से उनसे कनिष्ठ अधिकारियों यानी सर्वश्री जे० मुरलीधरण और ए० जे० जे० पोंदीधर को पदोन्नत किया गया था, श्री एम० के० कौशल को पदोन्नति देते हुए 6500-200-10,500 र० के वेतनमान में विदेश व्यापार विकास अधिकारी (राजपत्रित समूह 'ख') (गैर-केन्द्रीय सचिवालय सेवा) के रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० ए-19011/15/97-स्थापना—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी, श्री मन्सा राम द्वारा अधिवर्षिता आयु प्राप्त किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, 30 अप्रैल, 2004 के अपराह्न से श्री मन्सा राम, अनुभाग अधिकारी को सरकारी सेवा से निवृत्त करते हैं।

एल० एस० नेगी, अवर सचिव

दिनांक 6 मई 2004

सं० ए-19011/2/2004-स्थापना—राष्ट्रपति, श्री बी० पी० जोय, भा०प्र०से० (केरल : 87) को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में दिनांक 05-05-2004 (पूर्वाह्न) से 5 वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, दोनों में जो भी पहले हो, के लिए निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री बी०पी० जोय ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में पूर्वोक्त तारीख को निदेशक के कार्यालय का पद-भार संभाल लिया है।

एल० एस० नेगी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 2004

दिनांक 16-6-2003 से पूर्ववापी प्रभाव से नियुक्त होने के फलस्वरूप अधिकारी की विदेश व्यापार विकास अधिकारी (राजपत्रित समूह 'ख') (गैर-केन्द्रीय सचिवालय सेवा) के रूप में वेतन को एफ आर 22(I) (क) के अन्तर्गत 6500-200-10,500 र० के वेतनमान में नोशनल आधार पर तथा इस कार्यालय आदेश सं० 146/2003 दिनांक 12-12-2003 (फा० सं० 9/2/2003-एचआरडी-1 से जारी) में निर्दिष्ट तृतीयांश के स्थान पर पदभार ग्रहण करने की तारीख से वास्तविक आधार पर निर्धारित की जायेगी। विदेश व्यापार विकास अधिकारी के रूप में नोशनल आधार पर वेतन निर्धारित होने पर वे वेतन और भत्तों के किसी बकाया हेतु पात्र नहीं होंगे।

सं० ए-12011/10/2001-स्थापना—राष्ट्रपति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संवर्ग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा वर्ग "ग" के निम्न आशुलिपिकों को उनके सामने दी गई अवधि के लिए 6500-10,500 र० के वेतनमान में तदर्थ आधार पर निजी सचिव (क और ख विलयित) के रूप में नियुक्त करते हैं :—

फा० सं० 2/2/2002-एचआरडी-I से जारी अधिसूचना सं० 31/2003 दिनांक 12-12-2003 को तदनुसार संशोधित किया जाता है।

के० चन्द्रामती, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

क्रम सं०	नाम	से	तक
1.	श्री धर्म पाल	1-4-2004	30-6-2004
2.	श्री सुरेश चन्द्र	-वही-	-वही-
3.	श्री एस० के० ठाकुर	-वही-	-वही-
4.	श्री जगदीश चन्द	-वही-	-वही-
5.	श्री जे० के० टंडन	-वही-	-वही-

2. उपर्युक्त तदर्थ नियुक्तियां कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 मई 2004 के का० जा० सं० 5/5/2004 सी एस 2 के अनुमोदन से की गई हैं।

3. उपर्युक्त नियुक्तियां विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर हैं और इनसे उपरिवर्णित व्यक्तियों को नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

पी० जी० जार्ज, अवर सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 31 मई 2004

सं० ए-19011/2/2003-प्रशा०—राष्ट्रपति खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में सचिव श्री जे० वासुदेवन, आई०ए०एस० (केएन 68) को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 मई 2004 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त होने की अनुमति देते हैं। उन्हें 1-6-2004 के पूर्वाह्न से पेंशन स्थापना में स्थानांतरित किया जाता है।

मोहनजीत सिंह, उपसचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 मई 2004

सं० ए-32014/1/2004-स्था०-1—राष्ट्रपति, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित नियमित सहायकों को 25 मार्च, 2004 के पूर्वाह्न से 6500-200-10,500 रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारियों के पद पर नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम
1.	श्री पवन कुमार
2.	श्री शिव कुमार साधु
3.	श्री अनिरुद्ध मिश्रा
4.	श्री ओम प्रकाश
5.	श्री एम० आर० पालिया
6.	श्री वी० डी० शर्मा
7.	श्री मुरारी लाल
8.	श्रीमती अरुणा अग्रवाल
9.	श्री एन० एल० बलेचा
10.	श्री पी० के० गुप्ता
11.	श्री आर० के० जोहरी
12.	श्री रघुबीर सिंह
13.	श्री एच० एस० सुमन
14.	श्री बी० के० अग्रवाल

2. उपर्युक्त नियुक्तियां कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 मार्च, 2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21/9/2004-सी०एस०-1 के अनुसरण में और उसमें उल्लिखित शर्तों अध्यधीन की जाती है।

3. नियुक्त किए गए उपर्युक्त व्यक्तियों को खपाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त पद इस विभाग में सृजित किए गए माने जाएंगे।

एम० एल० मल्होत्रा, अवर सचिव

दिनांक 26 मई 2004

सं० ए-32011/1/2003-स्था०-1—राष्ट्रपति, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अवर सचिवों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तारीख
चयन सूची 1995		
1.	सुश्री सुजाता बैनर्जी (सी०एस०एल० 3611)	01-07-1995
चयन सूची 1996		
1.	श्री पी० के० भाटिया (सी०एस०एल० 3639)	01-07-1996
2.	श्री वी०के० भारद्वाज (सी०एस०एल० 3648)	01-07-1996
3.	श्री मित्तर सैन (सी०एस०एल० 3685)	01-07-1996

2. इन अधिकारियों की नियुक्ति भारत सरकार और अन्य बनाम श्री आर० के० ओझा और सुश्री प्रीति श्रीवास्तव द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर मुकदमों में अंतिम निर्णय की शर्त के अधधीन होगी।

एम० एल० मल्होत्रा, अवर सचिव

दिनांक 28 मई 2004

संख्या ए-32013/1/2004-स्था०-1— राष्ट्रपति, श्री राज बहादुर सिंह नेगी, अनुभाग अधिकारी को 16 अप्रैल 2004 के पूर्वाह्न से खाद्य और सार्वजनिक विभाग में 10000-15200/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम० एल० मल्होत्रा, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 14 मई 2004

सं० ए-12023/01/03-प्रशा०-1(ए)—इस विभाग की दिनांक 4 फरवरी, 2004 व 5 मई, 2004 की समसंख्यक अधिसूचनाओं के अनुक्रम में राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित स्थायी ग्रेड “सी” आशुलिपिकों की 6500-200-10,500 रुपये के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में निजी सचिव के रूप में 30 जून 2004 तक अथवा नियमित चयन सूची अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष तदर्थ नियुक्ति की अवधि बढ़ाते हैं।

- 1 श्री अनिल कथूरिया
- 2 श्री राम प्रकाश
- 3 श्रीमती कृष्णा माथुर
- 4 श्री बृज नाथ
- 5 श्री जितेन्द्र प्रभाकर
- 6 श्री एस० वी० मोहन

के० एस० नेपोलियन, निदेशक

नई दिल्ली-110016, दिनांक 17 मई 2004

सं० ए-12011/02/2004-प्रशा०. 1(ए)—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 मार्च, 2004 के का० जा० सं० 21/09/2004-सी० एस० I के अनुसरण में, राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के श्री डी० के० सत्यवली, सहायक की, 6500-200-10,500/- रु० के वेतनमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) के रूप में 17-05-2004 (पूर्वाह्न) से जब तक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो जाता अथवा अगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्ति करते हैं।

(2) यह तदर्थ नियुक्ति पूर्णतः काम-चलाऊ आधार पर की गई है और इस ग्रेड में अनिश्चित काल के लिए बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में सम्मिलित करने अथवा सैलेक्शन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

टी० एन० द्विवेदी, अवर सचिव

दिनांक 19 मई 2004

सं० ए-19014/3/2004-प्रशा० 1(ए)—राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में श्री विपिन जोशी को 8000-275-13500/- रु० के वेतनमान में तदर्थ आधार पर वैज्ञानिक ‘बी’ के रूप में 30-04-2004 (अपराह्न) से तथा अगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

टी० एन० द्विवेदी, अवर सचिव

दिनांक 20 मई 2004

सं० ए-19014/2/2004-प्रशा० 1(ए)—राष्ट्रपति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में श्रीमती एकता कपूर को 8000-275-13500/- रु० के वेतनमान में तदर्थ आधार पर वैज्ञानिक ‘बी’ के रूप में 19-05-04 (पूर्वाह्न) से तथा अगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

टी० एन० द्विवेदी, अवर सचिव

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 24 मई 2004

सं० ए-19015/02/2002-प्रशा० 1—राजभाषा विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-5/1/041(सेवा) दिनांक 21 जनवरी 04 के अनुसरण में राष्ट्रपति श्री ओम प्रकाश वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक को 21 जनवरी 04 के दोपहर के पहले से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में 7500-250-12000 रु० के वेतनमान में नियमित आधार पर सहायक निदेशक (रा० भा०) के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रदीप कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 2004

सं० ए० 31013/1/2002-सी० एच० एस०-V—राष्ट्रपति, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ ग्रेड-II (अध्यापनेत्तर उप-संवर्ग) में निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने निर्दिष्ट तारीख से स्थायी रूप में नियुक्त करते हैं:—

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	विशेषज्ञता	नियुक्ति की तारीख	स्थायीकरण की तारीख
1	2	3	4	5
1.	डॉ० अमर भटनागर	कैंसर सर्जन	10-4-2000	10-4-2001
2.	डॉ० रakesh वर्मा	कार्डियोलोजी	10-2-1989	10-2-1990
3.	डॉ० नीरज पंडित	कार्डियोलोजी	1-5-1998	1-5-1999

1	2	3	4	5
4.	डा० संदीप बंसल	कार्डियोलाज	24-4-1998	24-4-1999
5.	डा० सुधा रामरत्नम	कार्डियोलाज	19-2-1998	19-2-1999
6.	डा० विजय कुमार गुप्ता	सी० टी० सर्जरी	22-4-1998	22-4-1999
7.	डा० विजय ग्रीवर	सी० टी० सर्जरी	16-11-2001	16-11-2002
8.	डा० अजय कुमार अजमानी	एंडोक्रिनोलाजी	28-1-1999	28-1-2000
9.	डा० अलकजेन्डर एफ० खाखा	फॉरेंसिक मेडिसिन	3-4-1996	3-4-1997
10.	डा० अनिल कुमार नथ्यर	गेस्ट्रोएंट्रीलाजी	23-4-1998	23-4-1999
11.	डा० अतुल चावला	गेस्ट्रोएंट्रीलाजी	3-9-2001	3-9-2002
12.	डा० जे० एम० खुंगर	रूधिर विज्ञान	4-1-1997	4-1-1998
13.	डा० (सुश्री) मोनिका शर्मा	रूधिर विज्ञान	23-7-1998	23-7-1999
14.	डा० अश्विनी कु० मल्होत्रा	मेडिसिन	10-2-1992	10-2-1993
15.	डा० बी० के० त्रिपाठी	मेडिसिन	2-7-1992	2-7-1993
16.	डा० के० एल० महेश्वरी	मेडिसिन	25-8-1989	25-8-1990
17.	डा० अशोक कुमार	मेडिसिन	1-2-1994	1-2-1995
18.	डॉ० सत्य पाल कटारिया	मेडिसिन	27-5-1995	27-5-1996
19.	डॉ० चरनजीत सिंह	मेडिसिन	10-5-1995	10-5-1996
20.	डॉ० दिनेन्द्र कु० गुप्ता	मेडिसिन	4-5-1995	4-5-1996
21.	डॉ० विनय प्रकाश परवाल	मेडिसिन	28-4-1995	28-4-1996
22.	डा० सुरेन्द्र राजपाल	मेडिसिन	31-5-1995	31-5-1996
23.	डा० अरूण गौशा	मेडिसिन	26-4-1995	26-4-1996
24.	डा० रचना लाल	मेडिसिन	13-6-1995	13-6-1996
25.	डा० हरीश कु० गुप्ता	मेडिसिन	13-5-1995	13-5-1996
26.	डा० (सुश्री) स्मिता मोहन्ती	मेडिसिन	19-5-1995	19-5-1996
27.	डा० तिलक राज खुराना	मेडिसिन	27-4-1995	27-4-1996
28.	डा० बी० डी० शर्मा	मेडिसिन	24-8-1995	24-8-1996
29.	डा० संजय मल्होत्रा	मेडिसिन	28-4-1995	28-4-1996
30.	डा० अनिल कु० वार्ष्णेय	मेडिसिन	22-4-1995	22-4-1996
31.	डा० नरिन्द्र कु० गिरधर	मेडिसिन	15-5-1995	15-5-1996
32.	डा० दिन्दु अमिताभ	मेडिसिन	14-7-1995	14-7-1996
33.	डा० अर्जुन सिंह	मेडिसिन	3-7-1995	3-7-1996
34.	डा० राजेश मिनोचा	मेडिसिन	2-6-1995	2-6-1996
35.	डा० भारत भूषण रेवाड़ी	मेडिसिन	8-12-1995	8-12-1996
36.	डा० केंद्रेय सायिक कोया	मेडिसिन	4-4-1996	4-4-1997
37.	डा० ए० सी अग्रवाल	मेडिसिन	2-2-1998	2-2-1999
38.	डा० वाई० सी० पोरवाल	मेडिसिन	24-3-1999	24-3-2000
39.	डा० (सुश्री) आभा दुआ	मेडिसिन	7-9-2000	7-9-2001
40.	डा० नवीन कुमार	मेडिसिन	7-4-2000	7-4-2001
41.	डा० (सुश्री) मोहिन्द्र नारंग	मेडिसिन	5-1-2000	5-1-2001
42.	डा० प्रेम सिंह नथ्यर	मेडिसिन	31-3-2000	31-3-2001
43.	डा० वृजेश शर्मा	मेडिसिन	17-10-2000	17-10-2001
44.	डा० उषा सोरेन सिंह	सूक्ष्मजीवविज्ञान	23-3-1981	1-4-1988

1	2	3	4	5
45.	डा० सोमनाथ करमाकर	सूक्ष्मजीवविज्ञान	17-8-1992	17-8-1993
46.	डा० नंदिनी दुग्गल	सूक्ष्मजीवविज्ञान	31-3-1995	31-3-1996
47.	डा० (सुश्री) मंजू बाला यादव	सूक्ष्मजीवविज्ञान	10-3-1995	10-3-1996
48.	डा० राकेश कु० महाजन	सूक्ष्मजीवविज्ञान	29-8-1995	29-8-1996
49.	डा० (सुश्री) रजनी गैड	सूक्ष्मजीवविज्ञान	6-10-1995	6-10-1996
50.	डा० निरमल जीत कौर	सूक्ष्मजीवविज्ञान	25-4-1996	25-4-1997
51.	डा० (सुश्री) जगदेव कौर	सूक्ष्मजीवविज्ञान	25-3-1996	25-3-1997
52.	डा० (सुश्री) सौरभ शर्मा	सूक्ष्मजीवविज्ञान	28-10-1996	28-10-1997
53.	डा० (सुश्री) दीप्ती नय्यर	सूक्ष्मजीवविज्ञान	11-8-2000	11-8-2001
54.	डा० (सुश्री) माला श्रोवर	सूक्ष्मजीवविज्ञान	7-4-2000	7-4-2001
55.	डा० (सुश्री) संध्या काबरा	सूक्ष्मजीवविज्ञान	26-6-2000	26-6-2001
56.	डा० रेणूविहारी लाल गुर	सूक्ष्मजीवविज्ञान	22-6-2000	22-6-2001
57.	डा० के० एस० आनन्द	न्यूरोलजी	30-6-1998	30-6-1999
58.	डा० एल० एन० गुप्ता	न्यूरो-सर्जरी	9-6-1998	9-6-1999
59.	डा० एच० के० पाल	न्यूरो-सर्जरी	27-2-1999	27-2-2000
60.	डा० (सुश्री) सुनिता मलिक	प्रसूति और स्त्री रोग	18-5-1992	18-5-1993
61.	डा० (सुश्री) विजय जुत्शी	प्रसूति और स्त्री रोग	24-12-1992	24-12-1993
62.	डा० (सुश्री) आर० डी० हसिजा	प्रसूति और स्त्री रोग	31-8-1992	31-8-1993
63.	डा० मुरलीधर गोस्वामी	प्रसूति और स्त्री रोग	27-11-1991	27-11-1992
64.	डा० (सुश्री) बानी सरकार	प्रसूति और स्त्री रोग	11-5-1992	11-5-1993
65.	डा० (सुश्री) कृष्णा साहा	प्रसूति और स्त्री रोग	4-7-1995	4-7-1996
66.	डा० अचला बत्रा विवाहपूर्व आहूजा	प्रसूति और स्त्री रोग	12-5-1996	12-5-1996
67.	डा० (सुश्री) पूनम यादव	प्रसूति और स्त्री रोग	2-5-1995	2-5-1996
68.	डा० डौली ब्रावला	प्रसूति और स्त्री रोग	18-5-1995	18-5-1996
69.	डा० रेणु अरोड़ा	प्रसूति और स्त्री रोग	7-9-1995	7-9-1996
70.	डा० अनिल कुमार जैन	प्रसूति और स्त्री रोग	19-10-1995	19-10-1996
71.	डा० (सुश्री) स्वामी देवीकर	प्रसूति और स्त्री रोग	27-10-1995	27-10-1996
72.	डा० अमित सेनगुप्ता	प्रसूति और स्त्री रोग	15-11-1995	15-11-1996
73.	डा० (सुश्री) रीता रंजन	प्रसूति और स्त्री रोग	20-12-1995	20-12-1996
74.	डा० इंदू चवला	प्रसूति और स्त्री रोग	10-1-1996	10-1-1997
75.	डा० (सुश्री) एम० एस० पारकेल	प्रसूति और स्त्री रोग	29-9-1995	29-9-1996
76.	डा० सोनमखण्ड टोपदेन	प्रसूति और स्त्री रोग	17-7-1995	17-7-1996
77.	डा० बंगाली मांझी	प्रसूति और स्त्री रोग	26-11-1996	26-11-1997
78.	डा० (सुश्री) मुमताज खान	प्रसूति और स्त्री रोग	5-3-1997	5-3-1998
79.	डा० (सुश्री) रेखा खरे	प्रसूति और स्त्री रोग	13-11-1997	13-11-1998
80.	डा० (सुश्री) ए० जी० राधिका	प्रसूति और स्त्री रोग	26-5-1999	26-5-2000
81.	डा० (सुश्री) रेणू मलिक	प्रसूति और स्त्री रोग	7-5-1999	7-5-2000
82.	डा० (सुश्री) अल्का गोयल	प्रसूति और स्त्री रोग	30-5-2000	30-5-2001
83.	डा० एस० एस० लेयसपोकपम	प्रसूति और स्त्री रोग	5-11-1999	5-11-2000
84.	डा० आनन्द गोपाल दास	प्रसूति और स्त्री रोग	28-3-2000	28-3-2001
85.	डा० विजय कुमार गुप्ता	नेत्र विज्ञान	10-7-1992	10-7-1993

1	2	3	4	5
86.	डा० अनिल कुमार लाल	नेत्र विज्ञान	1-1-1992	1-1-1993
87.	डा० सुनील कुमार	नेत्र विज्ञान	5-6-1992	5-6-1993
88.	डा० (सुश्री) किरण भनोट	नेत्र विज्ञान	31-7-1992	31-7-1993
89.	डा० प्रवीन बासुमैत्रे	नेत्र विज्ञान	11-1-1993	11-1-1994
90.	डा० आर० के० दुवेश	नेत्र विज्ञान	5-3-1993	5-3-1994
91.	डा० मुकेश कु० शर्मा	नेत्र विज्ञान	6-9-1993	6-9-1994
92.	डा० जे० एस० भल्ला	नेत्र विज्ञान	7-6-1995	7-6-1996
93.	डा० रजेश हंस	नेत्र विज्ञान	17-11-1995	17-11-1996
94.	डा० एन० पी० सिंह	नेत्र विज्ञान	1-6-1995	1-6-1996
95.	डा० एस० एस० लालवानी	नेत्र विज्ञान	14-2-1995	14-2-1996
96.	डा० (सुश्री) अनिता आर० शर्मा	नेत्र विज्ञान	22-6-1996	22-6-1997
97.	डा० मानव दीप सिंह	नेत्र विज्ञान	29-9-1997	29-9-1998
98.	डा० अनुज मेहता	नेत्र विज्ञान	26-8-1997	26-8-1998
99.	डा० एच० के० यदुवंशी	नेत्र विज्ञान	22-10-1997	22-10-1998
100.	डा० (सुश्री) संगीता अबरोल	नेत्र विज्ञान	13-4-2000	13-4-2001
101.	डा० रंगनाथ एम० कट्टी	नेत्र विज्ञान	21-9-2000	21-9-2001
102.	डा० (सुश्री) आर० पदमा	नेत्र विज्ञान	21-8-2000	21-8-2001
103.	डा० सुनील रंगा	विकृति रोग विज्ञान	29-3-1996	29-3-1997
104.	डा० हरीश कुमार	बाल रोग चिकित्सक	16-6-1992	16-6-1993
105.	डा० (सुश्री) आर० पदमिनी	बाल रोग चिकित्सक	16-7-1992	16-7-1993
106.	डा० यू० पी० एस० कैन्थ	बाल रोग चिकित्सक	23-7-1993	23-7-1994
107.	डा० आई० पी० चौधरी	बाल रोग चिकित्सक	3-8-1993	3-8-1994
108.	डा० शान्ती अनन्त कृष्णन	बाल रोग चिकित्सक	1-8-1996	1-8-1997
109.	डा० अलोक कुमार अग्रवाल	बाल रोग चिकित्सक	5-12-1995	5-12-1996
110.	डा० नवीन कुमार	बाल रोग चिकित्सक	22-12-1995	22-12-1996
111.	डा० जगन्नाथ मोहपात्रा	बाल रोग चिकित्सक	5-12-1995	5-12-1996
112.	डा० आरती मरिया	बाल रोग चिकित्सक	11-12-1995	11-12-1996
113.	डा० आर० के० गुप्ता	बाल रोग चिकित्सक	10-3-1997	10-3-1998
114.	डा० वंदना जोगायकर	बाल रोग चिकित्सक	18-10-1995	18-10-1996
115.	डा० के० सी० टमारिया	बाल रोग चिकित्सक	1-12-1995	1-12-1996
116.	डा० सुभाश्री दास गुप्ता	बाल रोग चिकित्सक	30-6-1997	30-6-1998
117.	डा० (सुश्री) कान्ता दत्ता	बाल रोग चिकित्सक	2-12-1998	2-12-1999
118.	डा० बी० पात्रा	बाल रोग चिकित्सक	23-8-1999	23-8-2000
119.	डा० देवकी नंदन	बाल रोग चिकित्सक	7-9-1998	7-9-1999
120.	डा० चंदर भान सिंह	बाल रोग चिकित्सक	23-11-1998	23-11-1999
121.	डा० पी० एस० भंडारी	प्लास्टिक सर्जरी	27-3-1989	27-3-1990
122.	डा० अरुण गोयल	प्लास्टिक सर्जरी	6-11-1998	6-11-1999
123.	डा० विश्व प्रकाश	प्लास्टिक सर्जरी	15-5-1999	15-5-2000
124.	डा० शलभ कुमार	प्लास्टिक सर्जरी	9-2-1999	9-2-2000
125.	डा० शरदेन्दु शर्मा	प्लास्टिक सर्जरी	18-2-1999	18-2-2000
126.	डा० अरविन्द कुमार	मनश्चिकित्सा	5-10-1990	5-10-1991

1	2	3	4	5
127.	डा० प्रदीप अग्रवाल	मनश्चिकित्सा	31-10-1990	31-10-1991
128.	डा० अजीत कुमार दास	मनश्चिकित्सा	22-6-1992	23-6-1993
129.	डा० उदयन खस्टगिर	मनश्चिकित्सा	28-2-1992	28-2-1993
130.	डा० सुनील कुमार	मनश्चिकित्सा	28-12-1995	28-12-1996
131.	डा० कुलदीप कुमार	मनश्चिकित्सा	11-12-1995	11-12-1996
132.	डा० राज कुमार शर्मा	त्वचा एवं रतिज रोग	7-7-1987	7-7-1988
133.	डा० (सुश्री) एस० सुमित्रा	त्वचा एवं रतिज रोग	21-9-1992	21-9-1993
134.	डा० (सुश्री) एम० गोवरी	त्वचा एवं रतिज रोग	23-12-1992	23-12-1993
135.	डा० विरिन्दर धीर	त्वचा एवं रतिज रोग	28-2-1994	28-2-1995
136.	डा० (सुश्री) नीति खुंगर	त्वचा एवं रतिज रोग	4-2-1995	4-2-1996
137.	डा० (सुश्री) पूनम पूरी	त्वचा एवं रतिज रोग	21-1-1995	21-1-1996
138.	डा० राम जनम राम	त्वचा एवं रतिज रोग	8-8-1995	8-8-1996
139.	डा० माधुरी डब्ल्यू० बर्सागडे	त्वचा एवं रतिज रोग	1-11-1996	1-11-1997
140.	डा० संचिता कर्माकर	त्वचा एवं रतिज रोग	22-11-1997	22-11-1998
141.	डा० सुनील दयाल	त्वचा एवं रतिज रोग	27-10-1997	27-10-1998
142.	डा० (सुश्री) पुष्पा सिंह	त्वचा एवं रतिज रोग	15-6-1998	15-6-1999
143.	डा० सुनील कुमार	त्वचा एवं रतिज रोग	25-6-1999	25-6-2000
144.	डा० मूममिदी बी० राव	त्वचा एवं रतिज रोग	1-9-1999	1-9-2000
145.	डा० विजय गांधी	त्वचा एवं रतिज रोग	3-5-2001	3-5-2002
146.	डा० अश्विनी गुप्ता	सर्जरी	9-6-1992	9-6-1993
147.	डा० अजित सिन्हा	सर्जरी	29-7-1992	29-7-1993
148.	डा० एस० बी० आर्य	सर्जरी	7-7-1992	7-7-1993
149.	डा० सुनिल कुमार	सर्जरी	25-11-1987	25-11-1988
150.	डा० ए० एस० चावला	सर्जरी	3-4-1995	3-4-1996
151.	डा० पी० एस० खटाना	सर्जरी	10-3-1995	10-3-1996
152.	डा० राणा अनिल कुमार सिंह	सर्जरी	16-3-1995	16-3-1996
153.	डा० पी० सी० मोहंती	सर्जरी	16-10-1995	16-10-1996
154.	डा० (मेजर) चिंतामणि	सर्जरी	21-3-1995	21-3-1996
155.	डा० आर० एस० मोहिल	सर्जरी	1-4-1995	1-4-1996
156.	डा० रेणुका बंसल मलिक	सर्जरी	7-3-1995	7-3-1996
157.	डा० तीरज सक्सेना	सर्जरी	28-4-1995	28-4-1996
158.	डा० ए० एस० एन० राव	सर्जरी	23-3-1995	23-3-1996
159.	डा० विमल चन्दर	सर्जरी	1-7-1995	1-7-1996
160.	डा० पी० के० मिश्रा	सर्जरी	28-11-1996	28-11-1997
161.	डा० ए० के० गुप्ता	सर्जरी	31-3-1999	31-3-2000
162.	डा० विचित्रानन्द मिश्रा	सर्जरी	30-3-1999	30-3-2000
163.	डा० (सुश्री) शिवानी बी० पृथ्वी	सर्जरी	13-4-1999	13-4-2000
164.	डा० आर० के० सोनी	सर्जरी	29-4-1999	29-4-2000

1	2	3	4	5
165.	डा० विरेश कुमार	सर्जरी	15-6-1999	15-6-2000
166.	डा० एस० पी० बर्मा	क्षय रोग	9-3-1992	9-3-1993
167.	डा० रितु गुप्ता	क्षय रोग	27-11-2001	27-11-2002
168.	डा० देवकृषि त्रिपाठी	पी एम आर	12-5-2000	12-5-2001
169.	डा० लाला राम रिछेले	विकिरण निदान	22-11-93	22-11-94
170.	डा० रितु नायर मिश्रा	-वही-	17-2-1996	17-2-97
171.	डा० (श्रीमती) मधु नटराजन	-वही-	21-7-95	21-7-96
172.	डा० महेश कुमार मिश्रा	-वही-	21-3-1995	21-3-96
173.	डा० अनिल तनेजा	-वही-	25-5-95	25-5-96
174.	डा० नरिन्दर कुमार भाभ्री	-वही-	31-3-1995	31-3-96
175.	डा० यतिश अग्रवाल	-वही-	21-3-1995	21-3-96
176.	डा० यश पाल	-वही-	6-4-95	6-4-96
177.	डा० पिताम्बर सोनकर	-वही-	8-8-95	8-8-96
178.	डा० चन्द्रशेखर डागा	-वही-	31-8-95	31-8-96
179.	डा० (श्रीमती) पी० एस० किरण	-वही-	17-10-1996	17-10-97
180.	डा० (श्रीमती) शिवानी मेहरा	-वही-	7-7-97	7-7-98
181.	डा० एस० एम० चक्रा-नारायण	-वही-	5-11-97	5-11-98
182.	डा० रंजन चंद्रा	-वही-	3-7-98	3-7-99
183.	डा० (श्रीमती) पूनम वोहरा	-वही-	23-6-99	23-6-2000
184.	डा० शब्द सरण	-वही-	26-10-98	26-10-99
185.	डा० (श्रीमती) आर० पंकजम	-वही-	6-3-2000	6-3-2001
186.	डा० (श्रीमती) अमिता वर्मा मलिक	-वही-	11-8-99	11-8-2000
187.	डा० (श्रीमती) कविता वाणी	-वही-	8-9-2001	8-9-2002
188.	डा० कमल कांता विज	-वही-	5-9-2001	5-9-2002
189.	डा० रनेन चक्रवर्ती	रेडियो-थिरेपी	9-10-1995	9-10-96
190.	डा० अजय कुमार गुप्ता	-वही-	1-12-1995	1-12-96

वाई० के० तलवार, उप सचिव

सं० ए० 12025/4/2003-सी० एच० एस०-4---
राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० अजय कुमार को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेत्तर विशेषज्ञ उप-संवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-II (बाल रोग चिकित्सा) के पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें 24 मार्च, 2004 के पूर्वार्द्ध

से आगामी अदेशों तक 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, इलाहाबाद में तैनात करते हैं।

वाई० के० तलवार, उप सचिव

नई दिल्ली-11, दिनांक 31 मई 2004

सं० ए-32012/1/2003-सी० एच० एस०-I--केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य इयूटी चिकित्सा अधिकारी उप संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर अपनी प्रोन्नति के परिणामस्वरूप वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार

छोड़ दिया और नीचे निर्दिष्ट संबंधित संगठनों में उनके नामों के सामने उल्लिखित तिथियों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया :—

क्र० सं०	अधिकारियों का नाम	संगठन	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का पद छोड़ने की तिथि	मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्य ग्रहण करने की तिथि
1.	डा० के० के० जेठानी	के०स०स्वा०यो०, दिल्ली	05-04-2002 (पूर्वाह्न)	05-04-2002 (पूर्वाह्न)
2.	डा० टेक सिंह नेगी	के०स०स्वा०यो०, दिल्ली	04-04-2002 (अपराह्न)	05-04-2002 (पूर्वाह्न)
3.	डा० (सुश्री) एम० जोयमति देवी	के०स०स्वा०यो०, दिल्ली	04-04-2002 (अपराह्न)	05-04-2002 (पूर्वाह्न)
4.	डा० राहुल तिवारी	के०स०स्वा०यो०, दिल्ली	05-04-2002 (पूर्वाह्न)	05-04-2002 (पूर्वाह्न)
5.	डा० (सुश्री) अलका गरुड्याल	रा०रा०अ०, दिल्ली सरकार	05-04-2002 (पूर्वाह्न)	05-04-2002 (पूर्वाह्न)
6.	डा० (सुश्री) वन्दना बग्गा	रा०रा०अ०, दिल्ली सरकार	05-04-2002 (पूर्वाह्न)	05-04-2002 (पूर्वाह्न)
7.	डा० अरूण बनर्जी	रा०रा०अ०, दिल्ली सरकार	04-04-2002 (अपराह्न)	05-04-2002 (अपराह्न)

जगदीश कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 2004

सं० 12022/2/2004-स्था-1—राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी एस एस) के निम्नलिखित अधिकारियों को कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) में उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीखों से नियमित आधार पर अवर सचिव नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	चयन सूची	नियुक्ति की सी एस एस के का वर्ष	तारीख	ग्रेड-I के लिए दी गई वरिष्ठता
1.	श्री जी० सुब्रमण्यम	1995	1-7-1995	31	
2.	श्री आर०एस०कैम	1995	—वही—	39	
3.	श्री एच०सी०बत्रा	1996	1-7-1996	46	
4.	श्री संत आर०गोयल	1996	—वही—	49	
5.	श्री एम० के० चौधरी	1996	—वही—	65	

2. अधिकारियों की नियुक्ति श्री आर०के० ओझा और कु० प्रीति श्रीवास्तव बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्यो द्वारा दिल्ली के उच्च न्यायालय में दर्ज सिविल रिट याचिका के अंतिम निर्णय के विषयाधीन होगी।

के० डी०उम्रेतो, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 2004

सं० 17-6/91-फ०प्र-VI—राष्ट्रपति तिलहन विकास निदेशालय, हैदराबाद में निदेशक श्री एस० पी० जुयाल को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 मई, 2004 की अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त करते हैं।

पी० के० शर्मा, निदेशक (टी०एम०ओ०पी० एंड एम०)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 मई 2004

सं० ए-12025(1)/1/95-स्थापना—राष्ट्रपति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के स्थायी वरिष्ठ अनुसंधान अन्वेषक, श्रीमती पी० राजवंशी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पी०आर०ई०एम० प्रभाग में अनुसंधान अधिकारी के पद पर रु० 8000-275-13,500 (सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह “क”, राजपत्रित) के धेतनमान में 30 अप्रैल, 2004 के पूर्वाह्न से डा० गह को अवधि के लिए या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2 यह तदर्थ नियुक्ति उन्हें अनुसंधान अधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति के लिए या उस पद की वरिष्ठता के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी।

एल० सी० मेहरा, अवर सचिव

संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 मई 2004

सं० ए०-12022/1/97-प्रशासन-2-इस विभाग की दिनांक 1-10-2002 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में सक्षम अधिकारी, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के डेस्क अधिकारी श्री एस०डी० कौशिक को दूरसंचार विभाग में रुपये 10000-325-15200 के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक महानिदेशक (सतर्कता प्रशिक्षण) के पद पर मौजूदा शर्तों पर दिनांक 9-10-2003 से 6-1-2004 तक की अवधि के लिए बने रहने की अनुमति प्रदान करते हैं।

एस० के० वर्मा, उप सचिव (प्रशासन)

(डाक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई 2004

विषय : डाक सेवा समूह 'ख' ग्रेड में पदोन्नति एवं तैनाती

सं० 9-2/2003-एसपीजी-महानिदेशक डाक सहर्ष डाक सेवा समूह 'ख' में निम्नलिखित इन्स्पेक्टर्स लाईन के कर्मचारियों को नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए (वेतनमान 7500-250-12000/- रु०) प्रभार ग्रहण करने की तारीख से और अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

2. डाक सेवा समूह 'ख' ग्रेड में पदोन्नति पर अधिकारियों को उनके नाम के आगे लिखे सकिल में तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	वर्तमान सकिल/यूनिट	वह सकिल/यूनिट जहां पदोन्नति पर तैनात किए गए हैं
1	2	3	4
	सर्व/श्री		
1.	आर० एस० रामास्वामी	तमिलनाडु	पंजाब
2.	के. शशिधरन (अ.जा.)	केरल	पंजाब
3.	अशरफो लाल (अ. जा.)	बिहार	बिहार
4.	कंडरपा नायक (अ. जा.)	उड़ीसा	बिहार
5.	वी. सी. माने (अ. जा.) एपीएस	महाराष्ट्र	डाक प्रशिक्षण केन्द्र, मंसूर
6.	एस. विजयन (अ. जा.)	तमिलनाडु	पंजाब
7.	जगदीश बाबू (अ. जा.)	एपीएस	एपीएस
8.	एम. बेंकट रामुदी (अ.जा.)	आन्ध्र प्रदेश	पंजाब

1	2	3	4
सर्व/श्री			
9.	कुलदीप सिंह राणा (अ.ज.जा.)	एपीएस	एपीएस
10.	आई. वाई. पिम्पा इयाघरे (अ.ज.जा.)	महाराष्ट्र	पंजाब
11.	रामदीन कोकाडिया (अ.ज.जा.)	मध्य प्रदेश	व्यवसाय विकास निदेशालय नई दिल्ली

3. सतर्कता/अनुशासनिक मामला यदि कोई हो

इस कार्यालय के का० ज्ञा० सं० 25-19/88-एसपीजी दिनांक 04-05-88 के साथ परिचालित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का० ज्ञा० सं० 22011/2/86-स्था०(ए) दिनांक 12-01-88 जिसमें (तदुपरान्त) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापन सं० 22022/4/91-स्था०(ए) दिनांक 14-9-92 द्वारा संशोधन किया गया व जिसे इस कार्यालय के ज्ञापन सं० 25-19/88-एस पी जी दिनांक 13-10-92 के साथ परिचालित किया गया था, उसमें उल्लिखित किस्म का कोई सतर्कता/अनुशासनिक मामला यदि कर्मचारियों के खिलाफ लंबित है, तो उसे इस कार्यालय से विशिष्ट आदेश प्राप्त किए बिना तैनाती के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जाना चाहिए। वे कर्मचारी जिनके विरुद्ध कोई दण्ड प्रवर्तित है, तो उन्हें दण्ड की मियाद के समाप्त होने से पूर्व पदोन्नति नहीं दी जानी चाहिए। इस संबंध में एक रिपोर्ट तत्काल भेजी जाए।

4. परिवीक्षा अवधि

डाक सेवा समूह 'ख' में पदोन्नत सभी कर्मचारी दो वर्षों के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और इस पद पर बने रहने के लिए उनकी उपयुक्तता पर निर्णय दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के पूरा होने के बाद लिया जाएगा। यदि इस अवधि के दौरान कोई कर्मचारी 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अवकाश पर जाता है, तो अवकाश की अवधि के आधार पर परिवीक्षा अवधि को बढ़ा दिया जाएगा।

5. प्रशिक्षण

फिलहाल डाक सेवा समूह 'ख' में बिना किसी प्रशिक्षण के कर्मचारी को सीधी पदोन्नति दी जायगी। तथापि, जब और जैसे निदेशक, पोस्टल स्टाफ कालेज, गाजियाबाद द्वारा अधिसूचित किया जायगा, उन्हें निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा।

6. वेतन निर्धारण के लिए विकल्प

अधिकारी यदि एफ आर-22(I) (क) (1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिए तारीख चुनने के लिए विकल्प देना चाहते हैं, तो उन्हें पदोन्नति की तारीख से एक माह के अंदर विकल्प देना होगा।

7. अपने मूल सचिवों से बाहर आवंटित अधिकारी

आवंटित सचिव तैनाती आदेश तत्काल और किसी भी हालत में 19-5-2004 से पहले जारी कर देंगे। वे सचिव जहाँ कर्मचारी फिलहाल कार्य कर रहे हैं, उस सचिव से, जहाँ वे तैनात किए गए हैं, तैनाती आदेश प्राप्त होते ही तत्काल उन्हें कार्यमुक्त कर देंगे। यदि कोई कर्मचारी प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है तो वह सात दिन के अंदर प्रोन्नति प्रस्ताव को लिखित में अस्वीकार कर सकता है, अन्यथा उन्हें मुख्य पोस्टमास्टर जनरल द्वारा कार्यमुक्त कर दिया जायेगा। संबंधित सचिव के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अपने सचिव में अधिकारियों के प्रभार ग्रहण करने और कार्यमुक्त होने के संबंध में 25-5-2004 तक निश्चित ही निदेशालय को एक सभेकित रिपोर्ट भेजेंगे।

8. संगत कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट कृपया इस कार्यालय को यथा-समय भेज दी जाए।

आर० एस० यादव, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

दिनांक 17 मई 2004

सं० 2-1/01-एसजीपी—राष्ट्रपति अधिसूचना संख्या 2-1/2001-एसजीपी दिनांक 21-5-2001 और 2-5/2002-एसजीपी दिनांक 31-7-2002 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय डाक सेवा समूह 'क' के निम्नलिखित अधिकारियों को इस सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में गैर-प्रकटित चयन ग्रेड पर (वेतनमान 14,300-400-18,300 रु०) में संशोधित तिथि 6-6-2000 से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	भर्ती का वर्ष
1	2	3
	(सर्व/श्री)	
1.	एम०एन०एस० राव	1985
2.	सुश्री सुजता चौधरी	1985
3.	सुश्री सरिता सिंह	1985
4.	बी०बी० द्वे	1986
5.	मो०ई० हक	1986
6.	लेफ्ट० कर्नल सुखदेव राज	1985
7.	संतोष कुमार कमिला	1986
8.	आलोक शर्मा	1986
9.	चार्ल्स लोबो	1987
10.	सुश्री संझा रानी	1987
11.	अशोक कुमार पोद्दार	1987
12.	गौतम भट्टाचार्य	1987

1	2	3
13.	सुश्री स्मिता कुमार	1987
14.	सुभाष चन्द्र बर्मा	1987
15.	बी० चन्द्रशेखर	1987
16.	सुश्री एस०डी० रविचन्द्रन	1987
17.	एल०एन० शर्मा	1987
18.	सुश्री अलका झा मिश्रा	1987
19.	प्रशांत कुमार स्वेन	1987
20.	एस०एम० अलेक्जेंडर	1987
21.	के० बालासुब्रामनियन	1987
22.	एस० आर० मीणा	1987

आर०एस० यादव, सहायक महानिदेशक (एसजीपी)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 17 मई 2004

सं० 1-3/2000-प्रशासन—केन्द्रीय सचिवालय सेवा की ग्रेड-I की चयन सूची में नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप तथा कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का०जा० सं० 4/7/2003-सोएस-I दिनांक 21-04-2004 में दिए निबंधनों के अनुसरण में, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित तदर्थ ग्रेड-I अधिकारियों को, डाक विभाग के संवर्ग में, उसी ग्रेड में, प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :—

नाम	चयन सूची का वर्ष	नियुक्ति की तिथि
श्री आर० श्रीनिवासन	1996	27-05-1998
श्रीमती स्वर्ण चूध	1996	28-05-1998
श्री जी० पी० पिल्लै	1996	14-05-1999

2. अवर सचिव/सहायक महानिदेशक के पद पर इन अधिकारियों का वेतन कल्पित आधार पर निर्धारित किया जाएगा तथा इस प्रयोजन व अनुमोदित सेवा के प्रयोजन के लिए इनकी सेवा 01-07-1996 से मानी जाएगी। अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से कल्पित पद निर्धारण के कारण उच्च वेतन का लाभ दिया जाएगा।

3. अधिकारियों को इस अधिसूचना के जारी होने के एक महीने के अन्दर एफ आर 22 में दिये गए प्रावधानों के अनुसरण में अपनी नियुक्ति की तारीख से या निचले ग्रेड में वेतन वृद्धि की अगली तारीख से वेतन निर्धारण का विकल्प देने का प्रावधान उपलब्ध होगा। परन्तु ऐसे अधिकारी, जो अपनी चयन सूची वर्ष की 1 जुलाई से पहले तदर्थ आधार पर अवर सचिव के पद

पर पदोन्नत हो चुके थे तथा जिन्होंने खंडित विकल्प का लाभ पहले से ही ले लिया है, वे इस विकल्प का पुनः प्रयोग करने के पात्र नहीं होंगे।

4. उपर्युक्त चयन सूची में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 में अधिकारियों की नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में श्री आर० के० ओझा तथा सुश्री प्रीति श्रीवास्तव बनाम भारत संघ व अन्य द्वारा दायर सिविल रिट याचिका के अंतिम निर्णयों के अधीन होगी।

अमिताभ खर्कवाल, निदेशक (एफ एस एवं प्रशा)

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 19 मई 2004

सं० 2-2/2003-प्रशासन—अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2002 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति डाक विभाग संवर्ग के सहायक श्री राजेन्द्र कुमार ओझा को उसी संवर्ग में 6500-200-10500/- रुपये के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के तौर पर 18-05-2004 से नियुक्त करते हैं।

बी० एस० चोपड़ा, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

दिनांक 20 मई 2004

सं० 2-2/2002-प्रशासन—राष्ट्रपति, सहर्ष डाक विभाग संवर्ग की अनुभाग अधिकारी श्रीमती आर० गायत्री को उसी संवर्ग में डेस्क अधिकारी के तौर पर 6500-200-10500/- रु० के वेतनमान में 20-05-2004 से और अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

2. डेस्क अधिकारी के तौर पर अधिकारी को कार्यावधि उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्षों के लिए होगी और वे इस पद के साथ संबद्ध विशेष भत्ते के लिए पात्र होंगी।

बी० एस० चोपड़ा, सहायक महानिदेशक (प्रशासन)

पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 2004

सं० ए-19011/5/2004-स्थापना—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, स्थापना अधिकारी का कार्यालय के दिनांक 28 जनवरी, 2004 के कार्यालय ज्ञापन सं० 4/1/2004-ई०ओ० (एम०एम०-1) के अनुसरण में श्री ए० के० सिंह, आई एफ एस (यू पी : 83) ने दिनांक 5 मई, 2004 के पूर्वाह्न से

पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति विभाग में निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

अंजू भल्ला, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 2004

सं० एफ 6-9/2002-एम०-1—राष्ट्रपति, श्री राजेश गुप्ता का संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए जाने के उपरान्त उन्हें 30 अप्रैल, 2004 (पूर्वाह्न) से 6500-200-10,500/- रु० के वेतनमान में राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में बतौर निर्माण अधिकारी समूह 'ख' राजपत्रित अननुसन्धिवीय पद पर अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतियुक्ति आधार पर नियुक्त करते हैं।

एम० सुब्बारायण, अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 2004

सं० ए-12031/4/2004-स्था०-1—राष्ट्रपति, डा० एन० सी० कौशिक और श्री एच० के० राय, अवर सचिव (स्व-स्थाने) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को इसी मंत्रालय में तदर्थ आधार पर दिनांक 25-3-2004 से अगले आदेशों तक अवर सचिव (सी एस एस ग्रेड-I) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त तदर्थ नियुक्तियां उनके अनिश्चित समय तक इस ग्रेड में निरन्तर बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने या सी एस एस (अवर सचिव) ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती हैं।

ए० पी० पाटी, अवर सचिव

दिनांक 20 मई 2004

सं० ए-12025/2/2003-स्था०-II—राष्ट्रपति निम्न-लिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तारीख से अगले आदेशों तक रु० 8000-275-13500/- वेतनमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, में सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री सुधीर अखिलेश्वर सिंह	12-5-2004 (पूर्वाह्न)
2.	श्री जाम्भूलकर निर्माण किशन	14-5-2004 (पूर्वाह्न)

ए० पी० पाटी, अवर सचिव

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

नई दिल्ली-3, दिनांक 25 मई 2004

सं० 2/4/98-प्रशा-1-गृह मंत्रालय के दिनांक 13 मई, 2004 के आदेश सं० 14020/3/2004-यूटीएस-1 के अनुपालन में, इस मंत्रालय में निदेशक सुश्री शकुन्तला डी गेमलिन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एजीएमयू : 1984) को इस मंत्रालय से दिनांक 27 मई, 2004 के अपराह्न से कार्यमुक्त कर दिया गया है और उनको मुख्य सचिव (श्रीमती शैलजा चन्द्रा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई० पी० इस्टेट, नई दिल्ली को रिपोर्ट करने का निदेश दिया गया है।

जे० मजूमदार, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 2004

सं० 7/6/2003-जी डब्ल्यू-1- राष्ट्रपति, श्री एस० सी० धीमान, वैज्ञानिक 'घ' को 22 मार्च, 2003 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, उत्तरी हिमालयी क्षेत्र, धर्मशाला में 14,300-400-18,300/-रु० के वेतनमान में पदोन्नति पर क्षेत्रीय निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

सोहन एस० सैनी, अवर सचिव

महासागर विकास विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 मई 2004

सं० मविवि 18/7/98-स्थापना- राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री के०

नारायणन (सीएसएल सं० 3670) का वर्ष 1996 की चयन सूची में नाम शामिल होने पर उन्हें 1-7-1996 से नियमित अवर सचिव (सीएसएस के ग्रेड-1) के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री के० नारायणन की यह नियुक्ति श्री आर० के० ओझा तथा सुश्री प्रीति श्रीवास्तव बनाम भारत संघ तथा अन्य द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दर्ज सिविल रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

3. अवर सचिव के रूप में उनकी नियमित नियुक्ति के परिणामस्वरूप उनका वेतन 1-7-96 से सैद्धान्तिक रूप से निर्धारित किया जाएगा। तथापि श्री के० नारायणन को वास्तविक लाभ अवर सचिव के पद पर उनकी नियुक्ति की तारीख से मिलेगा। श्री के० नारायणन डीओपीटी द्वारा केन्द्रीकृत रूप से निकाले गए आदेश के अनुसार अवर सचिव के पद पर वास्तविक नियुक्ति की तारीख से वेतन का पुनः निर्धारण किए जाने पर बकाया राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे। इसके अलावा वे एफआर-22 के प्रावधान के तहत प्रदान किए गए वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प का लाभ प्राप्त करने के भी हकदार होंगे।

राकेश कुमार, उप सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 2004

सं० ए-19011/01/2004-प्रशा-1- राष्ट्रपति, श्री शाहिद मीजान, आई सी एन्ड सी ई एस (83) को 02 अप्रैल, 2004 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक श्रम मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम० सी० मित्तल, उप सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 28th May, 2004

No. RS/6/(v)2004/54-Perl—Consequent to the election of Shri Pranab Mukherjee, Chief Whip, Indian National Congress in Rajya Sabha as Member of Parliament, Lok Sabha, the services of Shri M.K. Mukherjee who had been appointed as Private Secretary on coterminus basis in the personal staff of Chief Whip of the Indian National Congress party in the Rajya Sabha stand terminated with effect from the forenoon of the 28th May, 2004, after granting a winding up period of 15 days w.e.f. 13th May, 2004.

P.R. GUHA ROY, Dy Secy.

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 27th May, 2004

F. No. 15/10/GN-5174/AN-I/2003—Consequent upon her selection to the post of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer on the basis of written examination and personal interview held on 8th-10th February, 2002 and 27th-28th December, 2002 respectively in Lok Sabha Secretariat, the Speaker is pleased to appoint Km. Juby Mehra to the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer in the scale of pay of Rs. 8000-13500 in an officiating capacity with effect from the forenoon of 17th May, 2004 until further orders.

2. She will be on probation in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer for a period of one year with effect from 17th May, 2004 up to 16th May, 2005.

3. Her *inter-se-seniority* in the grade of Executive/Legislative/Committee/Protocol Officer will be regulated in terms of R&CS Order No. PDA-1076/2003 dated 20th December, 2003.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi-110066, the 21st May, 2004

No. A-19013/2/2004-AD—The President is pleased to appoint Shri J.P. Sinha as Director in the National Security Council Secretariat in the pay scale of Rs. 16,400-20,000/- with effect from the forenoon of 20th May, 2004, on deputation basis for a period of 2 years or until further orders, whichever is earlier.

KRISHNA DUTT, Under Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560094, the 19th May 2004

No. 12/6/2/2004-I—The President is pleased to appoint Dr. E.V. Ramana Reddy, IAS (KN:88), as Director, in the Department of Space with effect from the forenoon of 19th May 2004 and until further orders.

K.S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 29th April, 2004

No. A-12022/2/2002-Adm.V:—In pursuance of the Department of Personnel and Training's O.M. No. 21/9/2004-CS.I dated 24th March, 2004 and in continuation of Planning Commission's Notification of even number dated 7.1.2004, the following regular Assistants of Planning Commission, who are already officiating as Section Officer on ad hoc basis, are continued as Section Officer on ad hoc basis for a further period w.e.f. the forenoon of 24th March, 2004 and until further orders:—

S.No.	Name of the officer	Select list year in Assistants' Grade
1.	Shri O.P. Chawla	1985
2.	Shri Narendra Kumar	1989
3.	Shri S.K. Nagi	1989
4.	Smt. N.K. Chhibbar	1989

2. The ad hoc appointment is made purely as a stop-gap measure and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade. The ad hoc appointment will continue till regular candidates in Section Officers' Grade are available through Seniority Quota and/or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the even of these officers not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistants' Grade on availability of such regular Section Officers.

RAVJIT SINGH, Under Secy.

No. A-12022/2/2002-Adm.V:—In pursuance of the Department of Personnel and Training's O.M. No. 21/9/2004-CS.I dated 24th March, 2004, the President of India is pleased to appoint Shri Manohar Khosla, a regular Assistant of CSS of Select List year 1989 as Section Officer on ad hoc basis in the Planning Commission w.e.f. the forenoon of 24th May, 2004 and until further orders.

2. The ad hoc appointment is made purely as a stop-gap measure and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade. The ad hoc appointment will continue till regular candidates in Section Officers' Grade are available through Seniority Quota and/or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of Shri Manohar Khosla not qualifying for regular appointment in either of these two categories, he will be reverted to the Assistants' Grade on availability or such regular Section Officers.

RAVJIT SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 5th May, 2004

No. A-44011/1/2003-Adm.I—In pursuance of directions from the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Dr. (Mrs.) Savita Sharma, ISS, Director, Planning Commission is relieved from the Planning Commission w.e.f. 05.05.2004 (AN) for appointment as Director, SDRD (NSSO), Kolkata.

K.K. CHHABRA, Under Secy.

The 11th May, 2004

No. F.6(1750)/98-Adm.I—The President is pleased to accept the resignation of Dr. (Smt.) Sujatha Viswanathan, IES, Director, Planning Commission (on foreign assignment with the Asian Development Bank w.e.f. 30.10.2000) from Govt. service w.e.f. 30.10.2003 (FN). Consequently, she stands relieved from Govt. service w.e.f. that date.

K.K. CHHABRA, Under Secy.

No. A-43014/03/2000-Admn. II—Consequent upon his transfer and posting as Research Officer in the Directorate of Economics & Statistics vide Department of Economic Affairs' Order No. 11016/2/99-IES, dated 07.05.2004, Shri M.C. Arya, Grade IV of IES, Research Officer, Planning Commission is relieved w.e.f. 11.05.2004 (AN) to report to the Directorate of Economics & Statistics.

K.K. CHHABRA, Under Secy.

The 13th May 2004

No. A-43014/03/2000-Admn. II—In partial modification of Planning Commission's Notification of even number dated 11th May, 2004, Shri M.C. Arya, Grade IV of IES, Research Officer, Planning Commission is relieved w.e.f. 13.05.2004 (AN) to report to the Directorate of Economics & Statistics.

K.K. CHHABRA, Under Secy.

No. A-43014/03/2000-Admn.II—Consequent upon his promotion to Grade IV of IES and posting as Research Officer in the Planning Commission vide Department of Economics Affairs' Order No. 11016/2/99-IES, dated 07.05.2004, Dr. Sharad Pant has assumed charge as Research Officer in the Planning Commission on regular promotion basis in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- w.e.f. 12.05.2004 (FN).

K.K. CHHABRA Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 24th May 2004

No. A-12025/1/2001-Admn. IV (LA)—Consequent upon her request for repatriation to her parent cadre on personal grounds, the President is pleased to relieve Smt. P.N. Santhakumari from the post of Member, Appellate Tribunal for Foreign Exchange, New Delhi with immediate effect and place her services at the disposal of her parent cadre i.e. High Court of Kerala.

YASHWANT SINGH, Under Secy.

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 21st May 2004

No. K. 13030/1/2004-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Ayyampalayam Somasundaram Venkatachala Moorthy, Judge of the Madras High Court, to be the Chief Justice of the Chhattisgarh High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

DR. P.K. SETH, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 25th May 2004

No. I-14011/7/2003-IPS.I—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 12.05.2004, approved the Select List of 2003, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 25.12.2003, and reconvened on 10.03.2004 containing the names of the following State Police Service Officers of Haryana, towards filling up three substantive vacancies in the IPS Haryana Cadre during 2003.

S.No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Dr. (Smt.) Rajshree Singh	05.07.1966
2.	Rajbir Singh	05.12.1950
3.	Jagdish Chander (SC)*	15.03.1957

*The name at Sl.No. 3 has been included in the list provisionally subject to clearance from the disciplinary proceedings pending against him.

S.P. VERMA, Under Secy.

No. I-14011/7/2003-IPS.I—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased

to appoint the following members of Haryana Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the cadre of Haryana under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) rules, 1954. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

Select List-2003

S.No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Dr. (Smt.) Rajshree Singh	05.07.1966
2.	Rajbir Singh	05.12.1950

S.P. VERMA, Under Secy.

New Delhi, the 27th May 2004

No. 20/G/2525-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri B.V. Gopinath, (IRS:87) as Director in the Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of 17th May, 2004 for a period of 5 years or until further orders whichever is earlier.

S.K. BHATNAGAR, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 25th May 2004

No. 14015/06/2003-AIS(I)-A—In terms of the provisions contained in Sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the Select List of 2002 for the Assam segment of the joint Assam-Meghalaya Cadre, containing the names of the following State Civil Service officers of the State of Assam, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 29th December, 2003, towards filling up 8 (eight) vacancies during 2002 in the Indian Administrative Service :—

Select List-2002

S.No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
\$1.	Pradip Kumar Das	16.03.1953
\$2.	Md. Nurul Haque	28.02.1946
3.	A.B. Md. Eunus	01.02.1953
4.	Balendra Basumatary (STP)	01.04.1948
5.	Subhash Ch. Longmailei (STH)	23.02.1953
#6.	Gokul Ch. Sarma	01.03.1948
7.	Rafique Zaman	01.02.1951
8.	Syed Iftikhar Hussain	21.09.1954

\$ The names at S. No. 1 and 2 have been included in the Select List provisionally subject to grant of Integrity Certificate by the State Government. The officer at S. No. 2 cannot be appointed as he has retired on 29th February, 2004.

The name at S. No. 6 has been included in the Select List provisionally subject to grant of Integrity Certificate by the State Government and his clearance in the disciplinary proceedings pending against him.

K.K. SHARMA, Desk Officer

No. 14015/06/2003-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Assam to the Indian Administrative Service against the vacancies of the year 2002 on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the Assam segment of the joint Assam-Meghalaya Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Sl. No. Name of the Officer

	S/Sh.
1.	A.B. Md. Eunus
2.	Balendra Basumatary (STP)
3.	Subhash Ch. Longmailei (STH)
4.	Rafique Zaman
5.	Syed Iftikhar Hussain

K.K. SHARMA, Desk Officer

The 26th May 2004

No. 14015/07/2003-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint Shri M.H. Sawant, a member of the State Civil Service of Maharashtra to the Indian Administrative Service on probation with immediate effect until further orders and to allocate him to the Maharashtra Cadre of the IAS, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

The above appointment is subject to the outcome of the following Court cases :—

- (i) Writ Petition No. 6839 of 2003 filed by the State of Maharashtra Vs. B.D. Sanap & Others.
- (ii) Writ Petition No. 6407 of 2003 filed by Sh. M.K. Thombre and Other Vs. B.D. Sanap & Others.

K.K. SHARMA, Desk Officer

New Delhi, the 26 May 2004

No. A.12026/1/2004-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Rakesh B. Dubey, Senior Hindi Translator of the CSOLS Cadre as Assistant Director (OL) in the pay scale of Rs. 7500-250-12000 on adhoc basis in this Department w.e.f. the forenoon of 19th May, 2004 for a period six months or till regular Assistant Director (OL) become available or until further orders whichever is earlier.

V.K. VELUKUTTY, Under Secy.

New Delhi, the 27 May 2004

No. 11019/5/2003-AIS-III—The President is pleased to direct that Dr. G.S. Jaiya, a member of the Indian Administrative Service borne on the cadre of AGMUT (1978) is deemed to have resigned from the Indian Administrative Service with immediate effect, in terms of Rule 7(2) of the All India Service (Leave) Rules, 1955.

AQEEL AHMAD, Dy. Secy.

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 18 May 2004

No. A.19012/10/2001-Admn.II—The President is pleased to appoint Ms. Anuradha Guru, a Senior Time Scale level Officer of IES as Deputy Director in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, with effect from the afternoon of 6th April 2004 in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200 and until further orders.

I.C. KAMBOJ, Under Secy.

The 19 May 2004

No. A-12011/21/2002-Admn.II—With the approval of Finance Secretary, Shri Anwar Ibrahim Kazi is appointed as Asstt. Private Secretary to Minister of State for Finance (Expenditure, Banking & Insurance) (Shri Anandrago Vithoba Adsul) w.e.f. the forenoon of 1st September, 2003 to 29.02.2004 on co-terminus basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500.

I.C. KAMBOJ, Under Secy.

The 20 May 2004

No. A-19012/2/2004-Admn.II—The President is pleased to appoint Shri Anil Kumar Sharma, a Senior Time Scale level Officer of IES as Assistant Adviser in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, with effect from the afternoon of 12th April, 2004 in the pay scale of Rs. 10,000-325-15200 and until further orders.

I.C. KAMBOJ, Under Secy.

No. A-19012/3/2004-Admn.II—The President is pleased to appoint Ms. Sunita Yadav, a Senior Time Scale level Officer of IES as Assistant Adviser in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, with effect from the afternoon of 12th April 2004 in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200 and until further orders.

I.C. KAMBOJ, Under Secy.

The 25 May 2004

No. A-12011/1/04-Ad.I—With the approval of Secretary (Economic Affairs) Shri J.K. Arya, Junior Accounts Officer of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs is appointed to the post of Accounts Officer in the pay scale of Rs. 7450-225-11500 in the same Department, on promotion basis, with immediate effect and until further orders.

I.C. KAMBOJ, Under Secy.

(Banking Division)

New Delhi, the 19th May 2004

No. A-32013/1/2002-Estt.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 1996 for appointment to Grade I (Under Secretary) of Central Secretariat Service, the President is pleased to appoint Shri M.K. Malhotra to the post of Under Secretary (Grade 1 of CSS) on regular basis with effect from 1.7.1996.

2. The pay of Shri M.K. Malhotra in the post of Under Secretary will be fixed with effect from 1.7.1996 on notional basis, but arrears of pay and allowances will be given to him from the date of actual appointment as Under Secretary on ad-hoc basis ordered centrally by the Department of Personnel & Training. In addition, Shri M.K. Malhotra will also be entitled to exercise the benefit of option for fixation of his pay as provided under the provisions of FR. 22.

3. The appointment of Shri M.K. Malhotra to the post of Under Secretary from the Select List 1996 shall be subject to the final decision in the Civil Writ Petitions filed in the High Court of Delhi by Shri R.K. Ojha and Ms. Preeti Srivastava Vs. Union of India and others.

D. CHOUDHURY, Under Secy.

(CURRENCY & COINAGE)

New Delhi, the 26th May 2004

No. F. 4/3/2003-Cy. I (SPM)—On attaining the age of superannuation, Shri B.R. Barmaia, Assistant Manager (Electrical), Security Paper Mill, Hoshangabad relinquished the charge of the office of Assistant Manager (Electrical), SPM, Hoshangabad on 31.01.2004 (AN) and the name stands deleted from the roll of Security Paper Mill, Hoshangabad with effect from that date.

P.K. SHARMA, Under Secy. (Cy. I)

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 25th May 2004

No. 9/2004/2/2/2002-HRD-I/1579—On the recommendation of a Review Departmental Promotion Committee held on 2.12.2003 to review the proceedings of the Departmental Promotion Committees held on 16.12.2002 for promotion of officers to the grade of Foreign Trade Development Officers in the Directorate General of Foreign Trade with retrospective effect from 16.6.2003, the Director General of Foreign Trade is pleased to appoint Shri M.K. Kaushal on promotion the following officers as Foreign Trade Development Officer (Gazetted Group 'B') (Non-CSS) in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 retrospectively with effect from 16.6.2003 which is the date on which his juniors viz. S/Sh. J. Murlidharan and A.J.J. Pondidhar were so promoted.

On appointment retrospectively with effect from 16.6.2003, the pay of the officer will be fixed notionally as Foreign Trade Development Officer (Gazetted Group 'B') (Non-CSS) in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 under FR 22(I)(a)(i) and actually with effect from the date of joining the post in the place of posting indicated in this office Order No. 146/2003 dated 12.12.2003 (issued from F. No. 9/2/2003-HRD-I). He will not be entitled to any arrears of pay and allowance on fixation of pay as Foreign Trade Development Officer on notional basis.

Notification No. 31/2003 dated 12/12/2003 issued from File No. 2/2/2002-HRD-I stands modified accordingly.

K. CHANDRAMATHI, Jt. Dir. General of Foreign Trade

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 18th May 2004

No. 08/2004 (A-19011/2/2004-Estt)—The President is pleased to appoint Shri J.K. Sharma, IAS (MP : 75), as Joint Secretary in the Ministry of Textiles in the scale of pay of Rs. 18400-500-22400 for a normal tenure of five years with effect from the forenoon of 18th May 2004 or until further orders, whichever event takes place earlier.

R. SUBRAHMANYAM, Director

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 30th April 2004

No. A-19011/15/97-Estt.—Consequent upon attaining the age of superannuation by Shri Mansa Ram, Section Officer in the Ministry of Petroleum & Natural Gas, the President is pleased to retire Shri Mansa Ram, Section Officer from Government service w.e.f. the afternoon of 30th April 2004.

L.S. NEGI, Under Secy.

The 6th May 2004

No. A-19011/2/2004-Estt. The President is pleased to appoint Shri V.P. Joy, IAS (KL : 87) as Director in the Ministry of Petroleum & Natural Gas with effect from 05.05.2004 (FN) for a period of 5 years or until further orders whichever event takes place earlier.

2. Shri V.P. Joy has assumed the charge of the office of the Director in the Ministry of Petroleum & Natural Gas on the aforesaid date.

L.S. NEGI, Under Secy.

New Delhi, the 11th May 2004

No. A-12011/10/2001-Estt. The President is pleased to appoint the following Steno Grade 'C' of CSSS borne on the Cadre of Ministry of Petroleum & Natural Gas as Private Secretary (A&B merged) on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 6500-10500/- for a period as mentioned against each :—

Sl. No.	Name	From	To
1.	Shri Dharam Pal	01.04.2004	30.06.2004
2.	Shri Suresh Chander	-do-	-do-
3.	Shri S.K. Thakur	-do-	-do-
4.	Shri Jagdish Chand	-do-	-do-
5.	Shri J.K. Tandon	-do-	-do-

2. The above ad hoc appointments are with the approval of Department of Personnel & Training vide O.M. No. 5/5/2004-CS. II dated 5th May 2004.

3. The above appointments are purely on ad hoc basis and will not bestow on the above mentioned persons any claim for regular appointment etc.

P.G. GEORGE, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 31st May 2004

No. A-19011/2/2003-Admn —The President is pleased to permit Shri J. Vasudevan, IAS(KN : 68), Secretary, Ministry

of Food Processing Industries to retire from Government service with effect from the afternoon of 31st May, 2004 on his attaining the age of superannuation. He is transferred to Pension Establishment w.e.f. forenoon of 01.06.2004.

MOHANJEET SINGH, Dy. Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD &
PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC
DISTRIBUTION)

New Delhi, the 20th May 2004

No. A-32014/1/2004-E. I.—The President is pleased to appoint the following regular Assistants of Central Secretariat Service (CSS) in the Department of Food & Public Distribution as Section Officers in the scale of pay of Rs. 6500-200-10,500/- on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 25th March, 2004.

Sl. No.	Name
1.	Shri Pawan Kumar
2.	Shri Shib Kumar Sadhu
3.	Shri Anirudh Mishra
4.	Shri Om Prakash
5.	Shri M. R. Palia
6.	Shri V. D. Sharma
7.	Shri Murari Lal
8.	Shri Aruna Aggarwal
9.	Shri N. L. Valecha
10.	Shri P.K. Gupta
11.	Shri R. K. Johari
12.	Shri Raghubir Singh
13.	Shri H. S. Suman
14.	Shri B. K. Aggarwal

2. The above appointments are made in pursuance of the DOP&Ts O.M. No. 21/9/2004-CS. I dated 25th March, 2004 and are subject to the conditions laid down therein.

3. The additional posts to the extent necessary to accommodate the aforesaid appointees would be deemed to have been created in the Department.

M. L. MALHOTRA, Under Secy.

The 26th May 2004

No. A-32011/1/2003-E. I.—The President is pleased to appoint the following Under Secretaries of the Central Secretariat Service (CSS) cadre on regular basis in the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution

(Department of Food & Public Distribution) w.e.f. dates mentioned against each :

Sl. No.	Name of Officer	Date of Appointment
<u>Select List 1995</u>		
1.	Ms. Sujata Banerjee (CSL : 3611)	01.07.1995
<u>Select List 1996</u>		
1.	Shri P.K. Bhatia (CSL : 3639)	01.07.1996
2.	Shri V.K. Bhardwaj (CSL : 3648)	01.07.1996
3.	Shri Mitter Sain (CSL : 3685)	01.07.1996

2. The appointment of the officers shall be subject to the final decision in the High Court of Delhi by Shri R.K. Ojha and Ms. Preeti Srivastva VS Union of India and Others.

M. L. MALHOTRA, Under Secy.

The 28th May 2004

No. A-32013/1/2004-E. I.—The President is pleased to appoint Shri Raj Bahadur Singh Negi, Section Officer as Under Secretary on *ad hoc basis* in the Department of Food & Public Distribution w.e.f. the forenoon of 16th April 2004 in the pay scale of Rs. 10000-15200/-

M.L. MALHOTRA, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110 016, the 14th May 2004

No. A 12023/1/03-Admn.I(A).—In continuation of this Department's Notification of even number dated 4th February, 2004 and 5th March, 2004, the President is pleased to extend the term of ad-hoc appointment of undermentioned permanent Grade 'C' Stenographers of the CSSS Cadre of the Ministry of Science and Technology as Private Secretaries in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 in the Department of Science and Technology upto 30.06.2004 or till regular select list officers join, which ever is earlier :—

1. Shri Anil Kathuria
2. Shri Ram Prakash
3. Smt. Krishna Mathur
4. Shri Brij Nath
5. Shri Jatinder Prabhakar
6. Shri S.V. Mohan

K.S. NAPOLEAN, Director

New Delhi-110 016, the 17th May 2004

No. A. I2011/02/2004-Admn.I(A).—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 21/09/2004-CS.I dated 25th March 2004 the President is pleased

to appoint Sh. D.K. Satyawali, Assistant of CSS cadre as Section Officer (ad-hoc) in the scale of Rs. 6500-200-10,500 in the Central Secretariat Service Cadre of Department of Science and Technology with effect from 17.05.2004 (F.N.) until regular candidate in Section Officers' Grade is available or until further orders.

2. The ad-hoc appointment is made purely as a stop-gap measure and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade.

T.N. DWIVEDI, Under Secy.

The 19th May 2004

No.A. 19014/3/2004-Admn.I(A).—The President is pleased to appoint Shri Bipin Joshi as Scientist 'B' on ad-hoc basis in the Department of Science and Technology in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 w.e.f. 30.04.2004 (AN) and until further orders.

T.N. DWIVEDI, Under Secy.

The 20th May 2004

No. A. 19014/2/2004-Admn.I(A).—The President is pleased to appoint Smt. Ekta Kapoor as Scientist 'B' on ad-hoc basis in the Department of Science and Technology in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 w.e.f. 19.05.2004 (FN) and until further orders.

T.N. DWIVEDI, Under Secy.

(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110 016, the 24th May 2004

No. A-19015/02/2002-Admn.—In pursuance of Department of Official Language Office Order No. 5/1/2004-OL (Service) dated 21st January, 2004, the President is pleased to appoint Shri Om Prakash, Senior Hindi Translator as Assistant Director (OL) on regular basis in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000/- in the Department of Scientific and Industrial Research with effect from the forenoon of 21st January 2004.

PRADEEP KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE
(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 27th May 2004

No. A-31013/1/2002-CHS-V.—The President is pleased to appoint substantively the following officers in the Specialist Gr.-II (Non-Teaching sub-cadre) of the Central

*Health Service, with effect from the dates indicated against each :—

Sl. No.	Name of the Officer	Speciality	Date of Appointment	Date of Confirmation
1	2	3	4	5
1.	Dr. Amar Bhatnagar	Cancer Surg.	10.04.2000	10.04.2001
2.	Dr. Rakesh Verma	Cardiology	10.02.1989	10.02.1990
3.	Dr. Neeraj Pandit	Cardiology	01.05.1998	01.05.1999
4.	Dr. Sandeep Bansal	Cardiology	24.04.1998	24.04.1999
5.	Dr. Sudha Ramarathnam	Cardiology	19.02.1998	19.02.1999
6.	Dr. Vijay Kumar Gupta	C.T. Surgery	22.04.1998	22.04.1999
7.	Dr. Vijay Grover	C.T. Surgery	16.11.2001	16.11.2002
8.	Dr. Ajay Kumar Ajmani	Endocrinology	28.01.1999	28.01.2000
9.	Dr. Alexander F. Khakha	Forensic Med.	03.04.1996	03.04.1997
10.	Dr. Anil Kumar Nayyar	Gastroenterology	23.04.1998	23.04.1999
11.	Dr. Atul Chawla	Gastroenterology	03.09.2001	03.09.2002
12.	Dr. J.M. Khunger	Haematology	04.01.1997	04.01.1998
13.	Dr. (Ms.) Monica Sharma	Haematology	23.07.1998	23.07.1999
14.	Dr. Ashwani Kr. Malhotra	Medicine	10.02.1992	10.02.1993
15.	Dr. B.K. Tripathy	Medicine	02.07.1992	02.07.1993
16.	Dr. K.L. Maheshwari	Medicine	25.08.1989	25.08.1990
17.	Dr. Ashok Kumar	Medicine	01.02.1994	01.02.1995
18.	Dr. Satya Pal Kataria	Medicine	27.05.1995	27.05.1996
19.	Dr. Charanjit Singh	Medicine	10.05.1995	10.05.1996
20.	Dr. Dipender Kr. Gupta	Medicine	04.05.1995	04.05.1996
21.	Dr. Binay Prakash Parwal	Medicine	28.04.1995	28.04.1996
22.	Dr. Surendra Rajpal	Medicine	31.05.1995	31.05.1996
23.	Dr. Arun Gonga	Medicine	26.04.1995	26.04.1996
24.	Dr. Rachna Lall	Medicine	13.06.1995	13.06.1996
25.	Dr. Harish Kr. Gupta	Medicine	13.05.1995	13.05.1996
26.	Dr. (Ms.) Smita Mohanty	Medicine	19.05.1995	19.05.1996
27.	Dr. Tilak Raj Khurana	Medicine	27.04.1995	27.04.1996
28.	Dr. B.D. Sharma	Medicine	24.08.1995	24.08.1996
29.	Dr. Sanjay Malhotra	Medicine	28.04.1995	28.04.1996
30.	Dr. Anil Kr. Varshney	Medicine	22.04.1995	22.04.1996
31.	Dr. Narinder Kr. Girdhar	Medicine	15.05.1995	15.05.1996
32.	Dr. Vindu Amitabh	Medicine	14.07.1995	14.07.1996
33.	Dr. Arjun Singh	Medicine	03.07.1995	03.07.1996
34.	Dr. Rajesh Minocha	Medicine	02.06.1995	02.06.1996
35.	Dr. Bharat Bhushan Rewari	Medicine	08.12.1995	08.12.1996
36.	Dr. Kandeth Shaik Koya	Medicine	04.04.1996	04.04.1997
37.	Dr. A.C. Agarwal	Medicine	02.02.1998	02.02.1999
38.	Dr. Y.C. Porwal	Medicine	24.03.1999	24.03.2000
39.	Dr. (Ms.) Abha Dua	Medicine	07.09.2000	07.09.2001
40.	Dr. Naveen Kumar	Medicine	07.04.2000	07.04.2001
41.	Dr. (Ms) Mohioder Narang	Medicine	05.01.2000	05.01.2001
42.	Dr. Prem Singh Nayyar	Medicine	31.03.2000	31.03.2001
43.	Dr. Brijesh Sharma	Medicine	17.10.2000	17.10.2001
44.	Dr. Usha Soren Singh	Microbiology	23.03.1981	01.04.1988
45.	Dr. Somnath Kamakar	Microbiology	17.08.1992	17.08.1993
46.	Dr. Nandini Duggal	Microbiology	31.03.1995	31.03.1996
47.	Dr. (Ms) Manju Bala Yadav	Microbiology	10.03.1995	10.03.1996
48.	Dr. Rakesh Kr. Mahajan	Microbiology	29.08.1995	29.08.1996
49.	Dr. (Ms) Rajai Gaiind	Microbiology	06.10.1995	26.10.1996

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
50	Dr. Nirmal Jit Kaur	Microbiology	25.04.1996	25.04.1997	104	Dr. Harish Kumar	Paediatrics	16.06.1992	16.06.1993
51	Dr. (Ms) Jagdev Kaur	Microbiology	25.03.1996	25.03.1997	105	Dr. (Ms) R. Padmini	Paediatrics	16.07.1992	16.07.1993
52	Dr. (Ms) Saurabh Sharma	Microbiology	28.10.1996	28.10.1997	106	Dr. U.P.S. Kainth	Paediatrics	23.07.1993	23.07.1994
53	Dr. (Ms) Deepthi Nayar	Microbiology	11.08.2000	11.08.2001	107	Dr. I.P. Choudhary	Paediatrics	03.08.1993	03.08.1994
54	Dr. (Ms) Mala Gover	Microbiology	07.04.2000	07.04.2001	108	Dr. Shanti Ananthakrishnan	Paediatrics	01.08.1996	01.08.1996
55	Dr. (Ms) Sandhya Kabra	Microbiology	26.06.2000	26.06.2001	109	Dr. Alok Kumar Agarwal	Paediatrics	05.12.1995	05.12.1996
56	Dr. Renu Bihari Lal Gur	Microbiology	22.06.2000	22.06.2001	110	Dr. Naveen Kumar	Paediatrics	22.12.1995	22.12.1996
57	Dr. K.S. Anand	Neurology	30.06.1998	30.06.1999	111	Dr. Jagannath Mohapatra	Paediatrics	05.12.1995	05.12.1996
58	Dr. L.N. Gupta	Neuro-Surgery	09.06.1998	09.06.1999	112	Dr. Arti Maria	Paediatrics	11.12.1995	11.12.1996
59	Dr. H.K. Pal	Neuro-Surgery	27.02.1999	27.02.2000	113	Dr. R.K. Gupta	Paediatrics	10.03.1997	10.03.1998
60	Dr. (Ms) Sumita Malik	Obs. & Gynae.	18.05.1992	18.05.1993	114	Dr. Vandana Jogaikar	Paediatrics	18.10.1995	18.10.1996
61	Dr. (Ms) Vijay Zutshi	Obs. & Gynae.	24.12.1992	24.12.1993	115	Dr. K.C. Tamaria	Paediatrics	01.12.1995	01.12.1998
62	Dr. (Ms) R.D. Hasija	Obs. & Gynae.	31.08.1992	31.08.1993	116	Dr. Subhashree Dasgupta	Paediatrics	30.06.1997	30.06.1998
63	Dr. Murtidhar Goswami	Obs. & Gynae.	27.11.1991	27.11.1992	117	Dr. (Ms) Kanta Dutta	Paediatrics	02.12.1998	02.12.1999
64	Dr. (Ms) Bani Sarkar	Obs. & Gynae.	11.05.1992	11.05.1993	118	Dr. B. Patra	Paediatrics	23.08.1999	23.08.2000
65	Dr. (Ms) Krishna Saha	Obs. & Gynae.	04.07.1995	04.07.1996	119	Dr. Devki Nandan	Paediatrics	07.09.1998	07.09.1999
66	Dr. Achla Batra Nee Ahuja	Obs. & Gynae.	12.05.1995	12.05.1996	120	Dr. Chander Bhan Singh	Paediatrics	23.11.1998	23.11.1999
67	Dr. (Ms) Poonam Yadav	Obs. & Gynae.	02.05.1995	02.05.1996	121	Dr. P.S. Bhandari	Plastic Surgery	27.03.1989	27.03.1990
68	Dr. Dolly Chawla	Obs. & Gynae.	18.05.1995	18.05.1996	122	Dr. Arun Goel	Plastic Surgery	06.11.1998	06.11.1999
69	Dr. Renu Arora	Obs. & Gynae.	07.09.1995	07.09.1996	123	Dr. Vishwa Prakash	Plastic Surgery	15.05.1999	15.05.2000
70	Dr. Anil Kumar Jain	Obs. & Gynae.	19.10.1995	19.10.1996	124	Dr. Shalabh Kumar	Plastic Surgery	09.02.1999	09.02.2000
71	Dr. (Ms) Swati Devikar	Obs. & Gynae.	27.10.1995	27.10.1996	125	Dr. Shardendu Sharma	Plastic Surgery	18.02.1999	18.02.2000
72	Dr. Anu Sengupta	Obs. & Gynae.	15.11.1995	15.11.1996	126	Dr. Arvind Kumar	Psychiatry	05.10.1990	05.10.1991
73	Dr. (Ms) Rita Ranjan	Obs. & Gynae.	20.12.1995	20.12.1995	127	Dr. Pradeep Agarwal	Psychiatry	31.10.1990	31.10.1991
74	Dr. Indu Chawla	Obs. & Gynae.	10.01.1996	10.01.1997	128	Dr. Aji Kumar Das	Psychiatry	23.06.1992	23.06.1993
75	Dr. (Ms) M.S. Parkale	Obs. & Gynae.	29.09.1995	29.09.1996	129	Dr. Udayan Khastgir	Psychiatry	28.02.1992	28.02.1993
76	Dr. Sonam Rabgay Topde	Obs. & Gynae.	17.7.1995	17.07.1996	130	Dr. Sunil Kumar	Psychiatry	28.12.1995	28.12.1996
77	Dr. Beagali Marjhi	Obs. & Gynae.	26.11.1996	26.11.1997	131	Dr. Kuldeep Kumar	Psychiatry	11.12.1995	11.12.1996
78	Dr. (Ms) Mumtaz Khan	Obs. & Gynae.	05.03.1997	05.03.1998	132	Dr. Raj Kumar Sharma	Skia & VD	07.07.1987	07.07.1988
79	Dr. (Ms) Rekha Khare	Obs. & Gynae.	13.11.1997	13.11.1998	133	Dr. (Ms) S. Sumitra	Skia & VD	21.09.1992	21.09.1993
80	Dr. (Ms) A.G. Radhika	Obs. & Gynae.	26.05.1999	26.05.2000	134	Dr. (Ms) M. Gawri	Skin & VD	23.12.1992	23.12.1993
81	Dr. (Ms) Renu Malik	Obs. & Gynae.	07.05.1999	07.05.2000	135	Dr. Virinder Dhir	Skin & VD	28.02.1994	28.02.1995
82	Dr. (Ms) Alka Goel	Obs. & Gynae.	30.05.2000	30.05.2001	136	Dr. (Ms) Niti Khunger	Skin & VD	04.02.1995	04.02.1996
83	Dr. S.S. Leimkolpam	Obs. & Gynae.	05.11.1999	05.11.2000	137	Dr. (Ms) Poonam Puri	Skin & VD	21.01.1995	21.01.1996
84	Dr. Anand Gopal Das	Obs. & Gynae.	28.03.2000	28.03.2001	138	Dr. (Ms) Ram Janam Ram	Skin & VD	08.08.1995	08.06.1996
85	Dr. Vijay Kumar Gupta	Ophthalmology	10.07.1992	10.07.1993	139	Dr. Madhuri W. Barsagade	Skin & VD	01.11.1996	01.11.1997
86	Dr. Anil Kumar Lal	Ophthalmology	01.01.1992	01.01.1993	140	Dr. Sanchita Karmakar	Skin & VD	22.11.1997	22.11.1998
87	Dr. Sunil Kumar	Ophthalmology	05.06.1992	05.06.1993	141	Dr. Sunil Dayal	Skin & VD	27.10.1997	27.10.1998
88	Dr. (Ms) Kiran Khanot	Ophthalmology	31.07.1992	31.07.1993	142	Dr. (Ms) Pushpa Singh	Skin & VD	15.06.1998	15.06.1999
89	Dr. Prabin Basumatary	Ophthalmology	11.01.1993	11.01.1994	143	Dr. Sunil Kumar	Skin & VD	25.06.1999	25.06.2000
90	Dr. R.K. Duvesh	Ophthalmology	05.03.1993	05.03.1994	144	Dr. Mumtaz V. Ran	Skin & VD	01.09.1999	01.09.2000
91	Dr. Mukesh Kr. Sharma	Ophthalmology	06.09.1993	06.09.1994	145	Dr. Vijay Gandhi	Skin & VD	03.05.2001	03.05.2002
92	Dr. J.S. Bhalla	Ophthalmology	07.06.1995	07.06.1996	146	Dr. Ashwani Gupta	Surgery	09.06.1992	09.06.1993
93	Dr. Rajesh Hans	Ophthalmology	17.11.1995	17.11.1996	147	Dr. Ajit Sinha	Surgery	29.07.1992	29.07.1993
94	Dr. N.P. Singh	Ophthalmology	01.06.1995	01.06.1996	148	Dr. S.V. Arya	Surgery	07.07.1992	07.07.1993
95	Dr. S.S. Lalwani	Ophthalmology	14.02.1995	14.02.1996	149	Dr. Sunil Kumar	Surgery	25.11.1987	25.11.1988
96	Dr. (Ms) Anita R. Sharma	Ophthalmology	22.06.1996	22.06.1997	150	Dr. A.S. Chawla	Surgery	03.04.1995	03.04.1996
97	Dr. Manav Deep Singh	Ophthalmology	29.09.1997	29.09.1998	151	Dr. P.S. Khatana	Surgery	10.03.1995	10.03.1996
98	Dr. Anuj Mehta	Ophthalmology	26.08.1997	26.08.1998	152	Dr. Rana Anil Kr. Singh	Surgery	16.03.1995	16.03.1996
99	Dr. H.K. Yaduvanshi	Ophthalmology	22.10.1997	22.10.1998	153	Dr. P.C. Mohanty	Surgery	16.10.1995	16.10.1996
100	Dr. (Ms) Sangeeta Abrol	Ophthalmology	13.04.2000	13.04.2001	154	Dr. (Maj.) Chinta Mani	Surgery	21.03.1995	21.03.1996
101	Dr. Ranganath M. Katti	Ophthalmology	21.09.2000	21.09.2001	155	Dr. R.S. Mohil	Surgery	01.04.1995	01.04.1996
102	Dr. (Ms) R. Padma	Ophthalmology	21.08.2000	21.08.2001	156	Dr. Renuka Bansal Malik	Surgery	07.03.1995	07.03.1996
103	Dr. Sunil Ranga	Pathology	29.03.1996	29.03.1997	157	Dr. Neeraj Saxena	Surgery	28.04.1995	28.04.1996
					158	Dr. A.S.N. Rao	Surgery	23.03.1995	23.03.1996
					159	Dr. Vimal Chander	Surgery	01.07.1995	01.07.1996

1	2	3	4	5
160	Dr. P.K. Mishra	Surgery	28.11.1996	28.11.1997
161	Dr. A.K. Gupta	Surgery	31.03.1999	31.03.2000
162	Dr. Bichitrnand Mishra	Surgery	30.03.1999*	30.03.2000
163	Dr. (Mrs.) Shivani B. Paruthy	Surgery	13.04.1999	13.04.2000
164	Dr. R.K. Soni	Surgery	29.04.1999	29.04.2000
165	Dr. Viresh Kumar	Surgery	15.06.1999	15.06.2000
166	Dr. S.P. Burma	T.B.	09.03.1992	09.03.1993
167	Dr. Ritu Gupta	T.B.	27.11.2001	27.11.2002
168	Dr. Deorishi Tripathi	PMR	12.05.2000	12.05.2001
169	Dr. Lala Ram Richhele	Radio-Diagnosis	22.11.1993	22.11.1994
170	Dr. Ritu Nair Misra	Radio-Diagnosis	17.02.1996	17.02.1997
171	Dr. (Smt.) Madhu Natarajan	Radio-Diagnosis	21.07.1995	21.07.1996
172	Dr. Mahesh Kumar Mittal	Radio-Diagnosis	21.03.1995	21.03.1996
173	Dr. Anil Taneja	Radio-Diagnosis	25.05.1995	25.05.1996
174	Dr. Narinder Kumar Bhambri	Radio-Diagnosis	31.03.1995	31.03.1996
175	Dr. Yatish Agarwal	Radio-Diagnosis	21.03.1995	21.03.1996
176	Dr. Yash Pal	Radio-Diagnosis	06.04.1995	06.04.1996
177	Dr. Pitamber Sonker	Radio-Diagnosis	08.08.1995	08.08.1996
178	Dr. Chandra Sekhar Daga	Radio-Diagnosis	31.08.1995	31.08.1996
179	Dr. (Smt.) P.S. Kiran	Radio-Diagnosis	17.10.1996	17.10.1997
180	Dr. (Smt.) Shibani Mehra	Radio-Diagnosis	07.07.1997	07.07.1998
181	Dr. S.M. Chakra-Narayana	Radio-Diagnosis	05.11.1997	05.11.1998
182	Dr. Ranjan Chandra	Radio-Diagnosis	03.07.1998	03.07.1999
183	Dr. (Smt.) Poonam Vohra	Radio-Diagnosis	23.06.1999	23.06.2000
184	Dr. Shabd Saran	Radio-Diagnosis	26.10.1998	26.10.1999
185	Dr. (Smt.) R. Pankjam	Radio-Diagnosis	06.03.2000	06.03.2001
186	Dr. (Smt.) Amita Verma Malik	Radio-Diagnosis	11.08.1999	11.08.2000
187	Dr. (Smt.) Kavita Vani	Radio-Diagnosis	08.09.2001	08.09.2002
188	Dr. Kamal Kanta Viz	Radio-Diagnosis	05.09.2001	05.09.2002
189	Dr. Ranen Chakraverty	Radio-Therapy	09.10.1995	09.10.1996
190	Dr. Ajay Kumar Gupta	Radio-Therapy	01.12.1995	01.12.1996

Y.K. TALWAR, Dy. Secy.

No. A. 12025/4/2003-CHS. IV—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ajay Kumar to the post of Specialist Grade-II (Paediatrics) of the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Service, on probation and to post him in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- at Central Govt. Health Scheme, Allahabad with effect from the forenoon of the 24th March, 2004 and until further orders.

Y. K. TALWAR, Dy. Secy.

New Delhi-11, the 31st May 2004

No. A. 32012/1/2003-CHS. I—Consequent on their promotion to the post of Chief Medical Officer, the following Officers belonging to the General Duty Medical Officer Sub-Cadre of the Central Health Service Relinquished the Charge of the post of Senior Medical Officer and assumed the charge of the post of Chief Medical Officer on the dates

indicated against their respective names in the concerned organisations as indicated below :—

Sl. No.	Name of the Officer	Organisation	Date of Relinquishment of charge as SMO	Date of Assumption of charge as CMO
1.	Dr. K. K. Jethani	CGHS Delhi	5.4.02 (FN)	5.4.02 (FN)
2.	Dr. Tek Singh Negi	„	4.4.02 (AN)	5.4.02 (FN)
3.	Dr. (Ms.) M. Joymati Devi	„	4.4.02 (AN)	5.4.02 (FN)
4.	Dr. Rahul Tewari	„	5.4.02 (FN)	5.4.02 (FN)
5.	Dr. (Ms.) Alka Garbyal	GNCT Delhi	5.4.02 (FN)	5.4.02 (FN)
6.	Dr. (Ms.) Vandana Bagga	„	5.4.02 (FN)	5.4.02 (FN)
7.	Dr. Arun Benerjee	„	4.4.02 (AN)	5.4.02 (FN)

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE (DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 11th May 2004

No. 12022/2/2004-E-I—The President is pleased to appoint the following Central Secretariat Service (CSS) Officers as Under Secretary in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation) on regular basis with effect from the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name of the Officer	Year of Select List	Date of appointment	Seniority assigned to Grade-I of CSS
1.	Shri G. Subramani	1995	1.7.1995	31
2.	Shri R.S. Kaim	-do-	1.7.1995	39
3.	Shri H.C. Batra	1996	1.7.1996	46
4.	Shri Sant R. Goyal	-do-	1.7.1996	49
5.	Shri M.K. Chaudhary	-do-	1.7.1996	65

2. The appointment of the officers shall be subject to the final decision in the Civil Writ Petitions filed in the High Court of Delhi by Shri R.K. Ojha and Ms. Preeti Srivastava Vs. Union of India and Others.

K.D. UPRETI, Under Secy.

New Delhi, the 28th May 2004

No. 17-6/91-CA VI—The President is pleased to retire Shri S.P. Juyal Director, Directorate of Oilseeds Development, Hyderabad from Government service with effect from the afternoon of 31st May 2004 on attaining the age of superannuation.

P. K. SHARMA, Director (TMOP&M)

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi-110001, the 12th May 2004.

No. A-12025(1)/195-Estt.—The President is pleased to appoint Smt. P. Rajwanshi, substantive Senior Research Investigator in the Ministry of Social Justice & Empowerment, to the post of Research Officer, in the pay scale of Rs. 8000-275-13500 (General Central Service, Group 'A', Gazetted), in the PREM Division of the Ministry of Social Justice & Empowerment purely on ad-hoc basis, with effect from the forenoon of the 30th April 2004 for a period of six months or until further orders, whichever is earlier.

2. This ad-hoc appointment will not confer on him any claim for regular appointment to the post of Research Officer or to the seniority of that post.

L.C. MAHRRA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-1, 24th May 2004

No. A-12022/1/97-Admn. II—In continuation of this Department's Notification of even number dated 1.10.2002, the Competent Authority hereby permits Shri S.D. Kaushik, Desk Officer of the CSS cadre, Department of Personnel & Training to continue as Assistant Director General (Vigilance Training) in the Department of Telecommunications in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- on deputation basis for a further period of one year w.e.f. 9th October 2003 to 6th January 2004 (A/N) on the existing terms and conditions.

S. K. VERMA, Dy. Secy. (Admn)

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110 001, the 12th May 2004

Subject : Promotions and posting in Postal Service Group 'B' Grade.

No. 9-2/2003-SPG.—The Director General (Posts) is pleased to appoint the following Inspectors' line officials to officiate on regular basis in Postal Service Group 'B' grade (Scale of Pay Rs. 7500-250-12000/-) with effect from the date of assumption of charge and until further orders.

2. The officers on promotion to Postal Service Group 'B' grade are posted to the circle mentioned against each.

Sl. No.	Name of the official	Circle/Unit	Circle/Unit to which allotted on promotion
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	R.S. Ramaswamy	TN	Punjab
2.	K. Sasidharan (SC)	Kerala	Punjab
3.	Asharfi Lal (SC)	Bihar	Bihar
4.	Kandarpa Naik (SC)	Orissa	Bihar

1	2	3	4
5.	V.C. Mane (SC) APS	Mah	PTC, Mysore
6.	S. Vijayan (SC)	TN	Punjab
7.	Jagdish Babu (SC)	APS	APS
8.	M. Venkat Ramudi (SC)	AP	Punjab
9.	Kuldeep Singh Rana (ST)	APS	APS
10.	I.Y. Pimppa-Iaghare (ST)	Mah	Punjab
11.	Ramdeen Kokadia (ST)	MP	B.D. Dte., New Delhi

3. Vigilance/Disciplinary Case, if any

In case any vig./disc. Case, of the type referred to in O.M. No. 22011/2/86-Estt. (A) dated 12.01.88 from DOP&T circulated vide this office memo No. 25-19/88-SPG dated 04.05.88 (subsequently) revised vide DOP&T memo No. 22022/4/91-Estt.(A) dt. 14.09.92 circulated vide this office Memo No. 25-19/88-SPG dated 13.10.92 is pending against any of the officials, he should not be relieved for posting without obtaining specific orders from this office. The officials against whom any punishment is current they should not be promoted before expiry of currency of punishment. A report in this regard be submitted immediately.

4. Probation Period

All the officials who have been promoted to the Postal Service Group 'B' will be on probation for two years and their suitability to hold this post will be adjudged on completion of two years of probation. If any official proceeds on leave for a period exceeding 30 days during this period, the probation period will be extended depending upon the period of leave.

5. Training

All the officials will be directly promoted to Postal Service Group 'B' without any training for the present. However they will have to undergo the prescribed training as and when notified by Director, PSC, Ghaziabad.

6. Option for Fixation of Pay

All the officers who wish to give option for choosing date for fixation of pay under FR-22(I)(a)(1) should do so within one month from the date of promotion.

7. Officers allotted out of their Parent Circles

The circles of allotment will immediately issue posting order and in any case not later than 19.05.2004. The Circles in which the officials are presently working will relieve the officials immediately on receipt of posting orders from the circles to which they are posted. In case, any official is not interested to assume promotional post, he may decline the offer of promotion in writing within a period of 7 days without which he may be relieved by concerned CPMG without fail. The CPMsG of the concerned circles will report to Directorate regarding assumption of charge and relief of officers in their circle in a consolidated manner by 25.05.2004. positively.

8. Relevant charge reports may please be sent to this office in due course.

R.S. YADAV
Asstt. Dir. Gen. (SGP)

The 17th May 2004

No. 2-1/2001-SPG.—In partial modification of notification Nos. 2-1/2005-SPG dtd, 21.05.2001 and 2-5/2002-SPG dtd. 31.07.2002, the President is pleased to appoint the following officers of the Indian Postal Service Group "A" to officiate against the post in the Non-Functional Selection Grade in the Junior Administrative Grade of the service (Scale of pay Rs. 14,300-400-18,300/-) w.e.f. revised date 6.6.2000 and until further orders.

Sl.No.	Name of the Officer	Year of recruitment
1	2	3
1.	M.N.S. Rao	1985
2.	Ms. Sujata Choudhary	1985
3.	Ms. Sarita Singh	1985
4.	B.B. Dave	1986
5.	Md. E. Haque	1986
6.	Lt. Col. Sukh Dev Raj	1985
7.	Santosh Kumar Kamila	1986
8.	Alok Sharma	1986
9.	Charles Lobo	1987
10.	Ms. Sandhya Rani	1987
11.	Ashok Kumar Poddar	1987
12.	Gautam Bhattacharya	1987
13.	Ms. Smita Kumar	1987
14.	Subhash Chandra Barmma	1987
15.	B. Chandrasekhar	1987
16.	Ms. S.D. Ravichandran	1987
17.	L.N. Sharma	1987
18.	Ms. Alka Jha Mishra	1987
19.	Prasant Kumar Swain	1987
20.	S.M. Alexander	1987
21.	K. Balasubramanian	1987
22.	S.R. Meena	1987

R.S. YADAV
Asstt. Dir. Gen. (SGP)

New Delhi-110 001, the 17th May 2004

No. 1-3/2000-Admn.—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of Grade I of CSS and in terms of Department of Personnel and Training's O.M. No. 4/7/2003-CS.I dated 21.04.2004, the President is pleased to appoint the following ad-hoc Grade I officers of CSS in the cadre of

Department of Posts on a regular basis to that grade with effect from the dates mentioned against their names :—

S.No.	Name	Select List year	Date of appointment
1.	Sh. R. Srinivasan	1996	27.05.1998
2.	Smt. Swarn Chugh	1996	28.05.1998
3.	Sh. G.P. Pillai	1996	14.05.1999

2. The pay of these officers as Under Secretary/Assistant Director General will be fixed on a notional basis and for this purpose as well as for the purpose of approved service, their appointment may be deemed to have been made with effect from 01.07.1996. The officers may, however, be given the benefit of higher pay on account of notional re-fixation from the dates mentioned against their names.

3. The officers shall have the option, to be exercised within one month from the date of issue of this notification, for fixation of their pay in the new post with effect from the dates of their appointment or with effect from the dates of next increment in the lower grade under the provisions of FR-22. However, such officers who were promoted as ad-hoc Under Secretaries prior to the 1st July of their Select List year and had availed of the benefit of split option, shall not be eligible to re-exercise the option.

4. The appointment of the officers to Grade I of CSS from the above select lists shall be subject to the final decision in the Civil Writ Petitions filed in the High Court of Delhi by Shri R.K. Ojha and Ms. Preeti Srivastava Vs. Union of India and others.

AMITABH KHARKWAL
Dir. (FS & Admn.)

New Delhi-110 001, the 19th May 2004

No. 2-2/2003-Admn.—On the results of the Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2002 for Section Officers' Grade, the President is pleased to appoint Shri Rajendra Kumar Ojha, Assistant in the cadre of Department of Posts as Section Officer in the same cadre in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 with effect from 18.05.2004.

B.S. CHOPRA
Asstt. Dir. Gen. (Admn.)

The 20th May 2004

No. 2-2/2002-Admn.—The President is pleased to appoint Smt. R. Gayathri, Section Officer of the cadre of the Department of Posts as Desk Officer in the same cadre in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 with effect from 20.05.2004 and until further orders.

2. The tenure of the officer as Desk Officer will be three years from the date of her appointment and she will be entitled for the special allowance attached to the post.

B.S. CHOPRA
Asstt. Dir. Gen. (Admn.)

**MINISTRY OF TOURISM & CULTURE
(DEPARTMENT OF CULTURE)**

New Delhi, the 5th May 2004

No. A19011/5/2004-Estt.—IN pursuance of the Department of Personnel & Training, Office of the Establishment Officer Office Memorandum No. 4/1/2004-EO(MM.I) dated 28th January, 2004 Shri A.K. Singh IFS (UP:83) has assumed the charge of the post of Director, Department of Culture, Ministry of Tourism & Culture with effect from the forenoon of 5th May, 2004.

ANJU BHALLA
Under Secy.

New Delhi, the 25th May 2004

No. F6-9/2002-M.I.—Consequent upon his selection by Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Rajesh Gupta as Production Officer, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial in the pay scale of Rs. 6500-200-10,500/- on deputation basis for a period not exceeding 3 years in National Museum, New Delhi with effect from april 30, 2004 (Fore Noon).

M. SUBBARAYAN, Under Secy.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 14th May, 2004

No. A-12031/4/2004-E-I—The President is pleased to appoint Dr. N.C. Kaushik and Shri H.K. Roy, Under Secretaries (in-situ) in the Ministry of Road Transport & Highways as Under Secretaries (Grade-I of CSS) in the same Ministry on ad-hoc basis w.e.f. 25.3.2004 until further orders.

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right on them to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in Grade-I (Under Secretary) of CSS.

A.P. PADHI, Under Secy.

The 20th May, 2004

No. A-12025/2/2003-EII—The President is pleased to appoint the following as Assistant Executive Engineer (Civil) in the Ministry of Road Transport & Highways, New Delhi in the pay scale of Rs. 8000-275-13,500/- with effect from the date shown against each, until further orders:—

S.No.	Name of officer	Date of appointment
1	Shri Sudhir Akhileshwar Singh	(12.05.2004 (FN))
2	Shri Jambhulkar Nirman Kishan	14.05.2004 (FN)

A.P. PADHI, Under Secy.

MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

New Delhi-3., the 25th May 2003

No. 2/4/98-Adm. I.—In pursuance of Ministry of Home Affairs, Order No. 14020/3/2004-UTS-I dated 13th May, 2004 Ms. Shakuntala D. Gamlin, IAS (AGMU:1984), Director of this Ministry stands relieved from this Ministry w.e.f. afternoon of 27th May, 2004 and she is directed to report Chief Secretary (Smt. Shailaja Chandra) Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi.

J. MAJUMDAR, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 25th May 2004

No. 7/6/2003-GW.I—The President is pleased to appoint Shri S.C.Dhiman, Scientist 'D' as Regional Director on promotion in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300 in Central Ground Water Board with effect from 22nd March, 2003 (Forenoon) at NHR, Dharamshala.

SOHAN S. SAINI, Under Secy.

DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT

New Delhi-110003, the 24th May 2004

No. DOD/18/7/98-Estt. The president to appoint Shri K. Narayanan (CSL No. 3670) a permanent Section Officer of Central Secretariat Service (CSS) as regular Under Secretary (Grade.I of CSS) w.e.f. 01.07.1996 consequent upon his inclusion in the Select List for the year 1996.

2. The appointment of Shri K. Narayanan shall be subject to the final decision in the Civil Writ Petitions filed in the High Court of Delhi by Shri RK Ojha and Ms. Preeti Srivasatava Vs. union of India and others.

3. Consequent upon his regular appointment as Under Secretary, his pay will be fixed notionally w.e.f. 01.07.1996. The actual benefits however would be available only from the date Shri K. Narayanan is appointed to the post of Under Secretary. The officer would be entitled to arrears on account of re-fixation of pay from the date of this actual appointment to the post of Under Secretary ordered centrally by DoPT. In addition, he shall also be entitled to exercise the benefit of option for fixation of pay as provided under the provision of FR-22.

RAKESH KUMAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 26th May 2004

No. A-19011/1/2004-Adm.I.—The President is pleased to appoint Shri Shahid Meezan, IC&CES (83) as Director in the Ministry of Labour with effect from the Forenoon of 2nd April, 2004 until further orders.

M.C. MITTAL, Dy Secy.